



?????

12 Apr 1995

08:20 PM

Mainpuri

Model: All-Dosha-Report

Order No: 120883501

## सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग \_\_\_\_\_: पुल्लिंग  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_: 12/04/1995  
दिन \_\_\_\_\_: बुधवार  
जन्म समय \_\_\_\_\_: 20:20:00 घंटे  
इष्ट \_\_\_\_\_: 36:05:25 घटी  
स्थान \_\_\_\_\_: Mainpuri  
राज्य \_\_\_\_\_: Uttar Pradesh  
देश \_\_\_\_\_: India

अक्षांश \_\_\_\_\_: 27:14:00 उत्तर  
रेखांश \_\_\_\_\_: 79:01:00 पूर्व  
मध्य रेखांश \_\_\_\_\_: 82:30:00 पूर्व  
स्थानिक संस्कार \_\_\_\_\_: -00:13:56 घंटे  
ग्रीष्म संस्कार \_\_\_\_\_: 00:00:00 घंटे  
स्थानिक समय \_\_\_\_\_: 20:06:04 घंटे  
वेलान्तर \_\_\_\_\_: -00:00:57 घंटे  
साम्पातिक काल \_\_\_\_\_: 09:27:24 घंटे  
सूर्योदय \_\_\_\_\_: 05:53:50 घंटे  
सूर्यास्त \_\_\_\_\_: 18:36:25 घंटे  
दिनमान \_\_\_\_\_: 12:42:35 घंटे  
सूर्य स्थिति(अयन) \_\_\_\_\_: उत्तरायण  
सूर्य स्थिति(गोल) \_\_\_\_\_: उत्तर  
ऋतु \_\_\_\_\_: वसन्त  
सूर्य के अंश \_\_\_\_\_: 28:26:28 मीन  
लग्न के अंश \_\_\_\_\_: 21:45:33 तुला

#### अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति \_\_\_\_\_: तुला - शुक्र  
राशि-स्वामी \_\_\_\_\_: सिंह - सूर्य  
नक्षत्र-चरण \_\_\_\_\_: पू०फाल्गुनी - 3  
नक्षत्र स्वामी \_\_\_\_\_: शुक्र  
योग \_\_\_\_\_: वृद्धि  
करण \_\_\_\_\_: बालव  
गण \_\_\_\_\_: मनुष्य  
योनि \_\_\_\_\_: मूषक  
नाड़ी \_\_\_\_\_: मध्य  
वर्ण \_\_\_\_\_: क्षत्रिय  
वश्य \_\_\_\_\_: वनचर  
वर्ग \_\_\_\_\_: श्वान  
युँजा \_\_\_\_\_: मध्य  
हंसक \_\_\_\_\_: अग्नि  
जन्म नामाक्षर \_\_\_\_\_: टी-टीकम  
पाया(राशि-नक्षत्र) \_\_\_\_\_: स्वर्ण - रजत  
सूर्य राशि(पाश्चात्य) \_\_\_\_\_: मेष

## पंचांग

दादा का नाम \_\_\_\_\_ :  
पिता का नाम \_\_\_\_\_ :  
माता का नाम \_\_\_\_\_ :  
जाति \_\_\_\_\_ :  
गोत्र \_\_\_\_\_ :

| कैलेंडर    | वर्ष          | मास    | तिथि/प्रविष्टे |
|------------|---------------|--------|----------------|
| राष्ट्रीय  | शक : 1917     | चैत्र  | 22             |
| पंजाबी     | संवत : 2051   | चैत्र  | 30             |
| बंगाली     | सन् : 1401    | चैत्र  | 28             |
| तमिल       | संवत : 2051   | पंगुनी | 29             |
| केरल       | कोल्लम : 1170 | मीनम   | 29             |
| नेपाली     | संवत : 2051   | चैत्र  | 29             |
| चैत्रादि   | संवत : 2052   | चैत्र  | शुक्ल 12       |
| कार्तिकादि | संवत : 2052   | चैत्र  | शुक्ल 12       |

### पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि \_\_\_\_\_ : 12  
तिथि समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 24:22:32  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_ : 12  
सूर्योदय कालीन नक्षत्र \_\_\_\_\_ : मघा  
नक्षत्र समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 07:59:04 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : पू०फाल्गुनी  
सूर्योदय कालीन योग \_\_\_\_\_ : गण्ड  
योग समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 11:24:46 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : वृद्धि  
सूर्योदय कालीन करण \_\_\_\_\_ : बव  
करण समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 12:59:00 घंटे  
जन्म करण \_\_\_\_\_ : बालव  
भयात \_\_\_\_\_ : 30:52:19  
भभोग \_\_\_\_\_ : 58:39:33  
भोग्य दशा काल \_\_\_\_\_ : शुक्र 9 वर्ष 6 मा 17 दि

### घात चक्र


मास \_\_\_\_\_ : ज्येष्ठ  
तिथि \_\_\_\_\_ : 3-8-13  
दिन \_\_\_\_\_ : शनिवार  
नक्षत्र \_\_\_\_\_ : मूल  
योग \_\_\_\_\_ : धृति  
करण \_\_\_\_\_ : बव  
प्रहर \_\_\_\_\_ : 1  
वर्ग \_\_\_\_\_ : मेष  
लग्न \_\_\_\_\_ : मीन  
सूर्य \_\_\_\_\_ : धनु  
चन्द्र \_\_\_\_\_ : मकर  
मंगल \_\_\_\_\_ : मकर  
बुध \_\_\_\_\_ : तुला  
गुरु \_\_\_\_\_ : कुम्भ  
शुक्र \_\_\_\_\_ : मीन  
शनि \_\_\_\_\_ : वृश्चिक  
राहु \_\_\_\_\_ : मेष

# जन्म कुण्डली

## लग्न कुण्डली



## चन्द्र कुण्डली



## लग्न कुण्डली और दशा

### लग्न कुंडली

|          |    |         |    |
|----------|----|---------|----|
| बु<br>सू | के |         |    |
| श<br>शु  |    |         | मं |
|          |    |         | चं |
|          | गु | रा<br>ल |    |

### लग्न कुंडली

|    |         |          |         |
|----|---------|----------|---------|
|    | के      | बु<br>सू | श<br>शु |
|    |         |          |         |
| मं |         |          |         |
| चं | ल<br>रा | गु       |         |

### विंशोत्तरी

शुक्र 9वर्ष 6मा 17दि

शुक्र

12/04/1995

30/10/2104

|        |            |
|--------|------------|
| शुक्र  | 29/10/2004 |
| सूर्य  | 29/10/2010 |
| चन्द्र | 29/10/2020 |
| मंगल   | 29/10/2027 |
| राहु   | 29/10/2045 |
| गुरु   | 29/10/2061 |
| शनि    | 29/10/2080 |
| बुध    | 29/10/2097 |
| केतु   | 30/10/2104 |

### योगिनी

उल्का 2वर्ष 10मा 11दि

भद्रिका

22/02/2023

22/02/2028

|         |            |
|---------|------------|
| भद्रिका | 02/11/2023 |
| उल्का   | 02/09/2024 |
| सिद्धा  | 23/08/2025 |
| संकटा   | 03/10/2026 |
| मंगला   | 22/11/2026 |
| पिंगला  | 04/03/2027 |
| धान्या  | 03/08/2027 |
| भ्रामरी | 22/02/2028 |


## ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

| ग्रह    | व | अ | राशि   | अंश      | गति       | नक्षत्र    | पद | नं. | रा    | न     | अं.   | स्थिति     |
|---------|---|---|--------|----------|-----------|------------|----|-----|-------|-------|-------|------------|
| लग्न    |   |   | तुला   | 21:45:33 | 310:29:24 | विशाखा     | 1  | 16  | शुक्र | गुरु  | गुरु  | ---        |
| सूर्य   |   |   | मीन    | 28:26:28 | 00:58:49  | रेवती      | 4  | 27  | गुरु  | बुध   | शनि   | मित्र राशि |
| चंद्र   |   |   | सिंह   | 20:18:05 | 13:38:57  | पूर्वाषाढा | 3  | 11  | सूर्य | शुक्र | गुरु  | मित्र राशि |
| मंगल    |   |   | कर्क   | 21:22:30 | 00:12:04  | आश्लेषा    | 2  | 9   | चंद्र | बुध   | शुक्र | नीच राशि   |
| बुध     | अ |   | मीन    | 26:20:16 | 02:03:44  | रेवती      | 3  | 27  | गुरु  | बुध   | गुरु  | नीच राशि   |
| गुरु    | व |   | वृश्चि | 21:23:49 | 00:02:04  | ज्येष्ठा   | 2  | 18  | मंगल  | बुध   | शुक्र | मित्र राशि |
| शुक्र   |   |   | कुंभ   | 24:41:35 | 01:12:12  | पूर्वाषाढा | 2  | 25  | शनि   | गुरु  | बुध   | मित्र राशि |
| शनि     |   |   | कुंभ   | 25:40:06 | 00:06:36  | पूर्वाषाढा | 2  | 25  | शनि   | गुरु  | बुध   | स्वराशि    |
| राहु    | व |   | तुला   | 11:50:43 | 00:01:51  | स्वाति     | 2  | 15  | शुक्र | राहु  | शनि   | मित्र राशि |
| केतु    | व |   | मेष    | 11:50:43 | 00:01:51  | अश्विनी    | 4  | 1   | मंगल  | केतु  | बुध   | मित्र राशि |
| हर्ष    |   |   | मक     | 06:27:54 | 00:01:08  | उत्तराषाढा | 3  | 21  | शनि   | सूर्य | बुध   | ---        |
| नेप     |   |   | मक     | 01:41:31 | 00:00:30  | उत्तराषाढा | 2  | 21  | शनि   | सूर्य | गुरु  | ---        |
| प्लूटो  | व |   | वृश्चि | 06:23:22 | 00:01:12  | अनुराधा    | 1  | 17  | मंगल  | शनि   | बुध   | ---        |
| दशम भाव |   |   | कर्क   | 25:38:31 | --        | आश्लेषा    | -- | 9   | चंद्र | बुध   | राहु  | --         |


व - वकी स - स्थिर  
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त  
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:47:38


### लग्न-चलित



### चन्द्र कुंडली



### नवमांश कुंडली



## चलित तथा निरयण भाव चलित

### चलित अंश

| भाव | भाव संधि         | भाव मध्य         |
|-----|------------------|------------------|
| 1   | तुला 07:24:23    | तुला 21:45:33    |
| 2   | वृश्चिक 07:24:23 | वृश्चिक 23:03:12 |
| 3   | धनु 08:42:02     | धनु 24:20:52     |
| 4   | मकर 09:59:42     | मकर 25:38:31     |
| 5   | कुम्भ 09:59:42   | कुम्भ 24:20:52   |
| 6   | मीन 08:42:02     | मीन 23:03:12     |
| 7   | मेष 07:24:23     | मेष 21:45:33     |
| 8   | वृष 07:24:23     | वृष 23:03:12     |
| 9   | मिथुन 08:42:02   | मिथुन 24:20:52   |
| 10  | कर्क 09:59:42    | कर्क 25:38:31    |
| 11  | सिंह 09:59:42    | सिंह 24:20:52    |
| 12  | कन्या 08:42:02   | कन्या 23:03:12   |


### निरयण भाव चलित

| भाव | राशि    | अंश      |
|-----|---------|----------|
| 1   | तुला    | 21:45:33 |
| 2   | वृश्चिक | 21:06:28 |
| 3   | धनु     | 22:35:13 |
| 4   | मकर     | 25:38:31 |
| 5   | कुम्भ   | 27:57:03 |
| 6   | मीन     | 26:51:00 |
| 7   | मेष     | 21:45:33 |
| 8   | वृष     | 21:06:28 |
| 9   | मिथुन   | 22:35:13 |
| 10  | कर्क    | 25:38:31 |
| 11  | सिंह    | 27:57:03 |
| 12  | कन्या   | 26:51:00 |


### तारा चक्र

| जन्म        | सम्पत्     | विपत्  | क्षेम   | प्रत्यारि | साधक       | वध        | मित्र    | अतिमित्र |
|-------------|------------|--------|---------|-----------|------------|-----------|----------|----------|
| पू०फाल्गुनी | उ०फाल्गुनी | हस्त   | चित्रा  | स्वाति    | विशाखा     | अनुराधा   | ज्येष्ठा | मूल      |
| पूर्वाषाढा  | उत्तराषाढा | श्रवण  | धनिष्ठा | शतभिषा    | पू०भाद्रपद | उ०भाद्रपद | रेवती    | अश्विनी  |
| भरणी        | कृतिका     | रोहिणी | मृगशिरा | आर्द्रा   | पुनर्वसु   | पुष्य     | आश्लेषा  | मघा      |

### चलित कुंडली



### भाव कुंडली




## कारक, अवस्था, रश्मि

| ग्रह  | ----- कारक ----- |        |        | ----- अवस्था ----- |           |       | ग्रह बल |
|-------|------------------|--------|--------|--------------------|-----------|-------|---------|
|       | चर               | स्थिर  | बालादि | दीप्तादि           | शयनादि    | रश्मि |         |
| सूर्य | आत्मा            | पितृ   | बाल    | मुदित              | भोजन      | 9.36  | 47 %    |
| चंद्र | कलत्र            | मातृ   | वृद्ध  | मुदित              | प्रकाश    | 3.63  | 42 %    |
| मंगल  | ज्ञाति           | भातृ   | कुमार  | भीत                | नेत्रपाणि | 0.25  | 28 %    |
| बुध   | अमात्य           | ज्ञाति | बाल    | विकल               | आगमन      | 0.00  | 60 %    |
| गुरु  | पुत्र            | धन     | कुमार  | मुदित              | निद्रा    | 1.70  | 24 %    |
| शुक्र | मातृ             | कलत्र  | मृत    | मुदित              | आगमन      | 6.56  | 73 %    |
| शनि   | भातृ             | आयु    | मृत    | स्वस्थ             | उपवेशन    | 2.26  | 54 %    |
| राहु  | ---              | ज्ञान  | कुमार  | मुदित              | आगमन      | 0.00  | 69 %    |
| केतु  | ---              | मोक्ष  | कुमार  | मुदित              | आगमन      | 0.00  | 69 %    |
| कुल   |                  |        |        |                    |           | 23.76 |         |


### तारा चक्र

| जन्म        | सम्पत      | विपत   | क्षेम   | प्रत्यारि | साधक       | वध        | मित्र    | अतिमित्र |
|-------------|------------|--------|---------|-----------|------------|-----------|----------|----------|
| पू०फाल्गुनी | उ०फाल्गुनी | हस्त   | चित्रा  | स्वाति    | विशाखा     | अनुराधा   | ज्येष्ठा | मूल      |
| पूर्वाषाढा  | उत्तराषाढा | श्रवण  | धनिष्ठा | शतभिषा    | पू०भाद्रपद | उ०भाद्रपद | रेवती    | अश्विनी  |
| भरणी        | कृतिका     | रोहिणी | मृगशिरा | आर्द्रा   | पुनर्वसु   | पुष्य     | आश्लेषा  | मघा      |

### चलित कुंडली



### लग्न-चलित



## विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : शुक्र 9 वर्ष 6 मास 17 दिन

| शुक्र 20 वर्ष   | सूर्य 6 वर्ष     | चंद्र 10 वर्ष    | मंगल 7 वर्ष      | राहु 18 वर्ष     |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12/04/1995      | 29/10/2004       | 29/10/2010       | 29/10/2020       | 29/10/2027       |
| 29/10/2004      | 29/10/2010       | 29/10/2020       | 29/10/2027       | 29/10/2045       |
| 00/00/0000      | सूर्य 15/02/2005 | चंद्र 30/08/2011 | मंगल 27/03/2021  | राहु 12/07/2030  |
| 00/00/0000      | चंद्र 17/08/2005 | मंगल 30/03/2012  | राहु 14/04/2022  | गुरु 04/12/2032  |
| 00/00/0000      | मंगल 23/12/2005  | राहु 29/09/2013  | गुरु 21/03/2023  | शनि 11/10/2035   |
| 00/00/0000      | राहु 16/11/2006  | गुरु 29/01/2015  | शनि 29/04/2024   | बुध 30/04/2038   |
| 12/04/1995      | गुरु 05/09/2007  | शनि 29/08/2016   | बुध 26/04/2025   | केतु 18/05/2039  |
| गुरु 29/08/1997 | शनि 17/08/2008   | बुध 28/01/2018   | केतु 22/09/2025  | शुक्र 18/05/2042 |
| शनि 29/10/2000  | बुध 23/06/2009   | केतु 29/08/2018  | शुक्र 23/11/2026 | सूर्य 12/04/2043 |
| बुध 30/08/2003  | केतु 29/10/2009  | शुक्र 29/04/2020 | सूर्य 30/03/2027 | चंद्र 10/10/2044 |
| केतु 29/10/2004 | शुक्र 29/10/2010 | सूर्य 29/10/2020 | चंद्र 29/10/2027 | मंगल 29/10/2045  |

| गुरु 16 वर्ष     | शनि 19 वर्ष      | बुध 17 वर्ष      | केतु 7 वर्ष      | शुक्र 20 वर्ष    |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 29/10/2045       | 29/10/2061       | 29/10/2080       | 29/10/2097       | 30/10/2104       |
| 29/10/2061       | 29/10/2080       | 29/10/2097       | 30/10/2104       | 00/00/0000       |
| गुरु 17/12/2047  | शनि 01/11/2064   | बुध 27/03/2083   | केतु 27/03/2098  | शुक्र 29/02/2108 |
| शनि 29/06/2050   | बुध 12/07/2067   | केतु 24/03/2084  | शुक्र 27/05/2099 | सूर्य 28/02/2109 |
| बुध 04/10/2052   | केतु 20/08/2068  | शुक्र 22/01/2087 | सूर्य 02/10/2099 | चंद्र 30/10/2110 |
| केतु 10/09/2053  | शुक्र 20/10/2071 | सूर्य 29/11/2087 | चंद्र 03/05/2100 | मंगल 30/12/2111  |
| शुक्र 11/05/2056 | सूर्य 01/10/2072 | चंद्र 29/04/2089 | मंगल 29/09/2100  | राहु 30/12/2114  |
| सूर्य 27/02/2057 | चंद्र 03/05/2074 | मंगल 27/04/2090  | राहु 18/10/2101  | गुरु 13/04/2115  |
| चंद्र 29/06/2058 | मंगल 11/06/2075  | राहु 13/11/2092  | गुरु 24/09/2102  | 00/00/0000       |
| मंगल 05/06/2059  | राहु 17/04/2078  | गुरु 19/02/2095  | शनि 02/11/2103   | 00/00/0000       |
| राहु 29/10/2061  | गुरु 29/10/2080  | शनि 29/10/2097   | बुध 30/10/2104   | 00/00/0000       |

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल शुक्र 9 वर्ष 5 मा 21 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

## विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>मंगल - शुक्र</b><br>22/09/2025<br>23/11/2026  | <b>मंगल - सूर्य</b><br>23/11/2026<br>30/03/2027  | <b>मंगल - चंद्र</b><br>30/03/2027<br>29/10/2027  | <b>राहु - राहु</b><br>29/10/2027<br>12/07/2030   | <b>राहु - गुरु</b><br>12/07/2030<br>04/12/2032   |
| शुक्र 02/12/2025<br>सूर्य 24/12/2025<br>चंद्र 28/01/2026<br>मंगल 22/02/2026<br>राहु 27/04/2026<br>गुरु 23/06/2026<br>शनि 29/08/2026<br>बुध 29/10/2026<br>केतु 23/11/2026 | सूर्य 29/11/2026<br>चंद्र 10/12/2026<br>मंगल 17/12/2026<br>राहु 05/01/2027<br>गुरु 22/01/2027<br>शनि 12/02/2027<br>बुध 02/03/2027<br>केतु 09/03/2027<br>शुक्र 30/03/2027 | चंद्र 17/04/2027<br>मंगल 30/04/2027<br>राहु 01/06/2027<br>गुरु 29/06/2027<br>शनि 02/08/2027<br>बुध 01/09/2027<br>केतु 13/09/2027<br>शुक्र 19/10/2027<br>सूर्य 29/10/2027 | राहु 25/03/2028<br>गुरु 04/08/2028<br>शनि 07/01/2029<br>बुध 27/05/2029<br>केतु 23/07/2029<br>शुक्र 04/01/2030<br>सूर्य 22/02/2030<br>चंद्र 15/05/2030<br>मंगल 12/07/2030 | गुरु 05/11/2030<br>शनि 24/03/2031<br>बुध 26/07/2031<br>केतु 16/09/2031<br>शुक्र 09/02/2032<br>सूर्य 24/03/2032<br>चंद्र 05/06/2032<br>मंगल 26/07/2032<br>राहु 04/12/2032 |
| <b>राहु - शनि</b><br>04/12/2032<br>11/10/2035  | <b>राहु - बुध</b><br>11/10/2035<br>30/04/2038  | <b>राहु - केतु</b><br>30/04/2038<br>18/05/2039   | <b>राहु - शुक्र</b><br>18/05/2039<br>18/05/2042  | <b>राहु - सूर्य</b><br>18/05/2042<br>12/04/2043  |
| शनि 18/05/2033<br>बुध 13/10/2033<br>केतु 12/12/2033<br>शुक्र 04/06/2034<br>सूर्य 26/07/2034<br>चंद्र 21/10/2034<br>मंगल 20/12/2034<br>राहु 25/05/2035<br>गुरु 11/10/2035 | बुध 20/02/2036<br>केतु 14/04/2036<br>शुक्र 17/09/2036<br>सूर्य 02/11/2036<br>चंद्र 19/01/2037<br>मंगल 14/03/2037<br>राहु 01/08/2037<br>गुरु 03/12/2037<br>शनि 30/04/2038 | केतु 22/05/2038<br>शुक्र 25/07/2038<br>सूर्य 13/08/2038<br>चंद्र 14/09/2038<br>मंगल 06/10/2038<br>राहु 03/12/2038<br>गुरु 23/01/2039<br>शनि 25/03/2039<br>बुध 18/05/2039 | शुक्र 17/11/2039<br>सूर्य 10/01/2040<br>चंद्र 11/04/2040<br>मंगल 14/06/2040<br>राहु 25/11/2040<br>गुरु 20/04/2041<br>शनि 11/10/2041<br>बुध 15/03/2042<br>केतु 18/05/2042 | सूर्य 03/06/2042<br>चंद्र 01/07/2042<br>मंगल 20/07/2042<br>राहु 07/09/2042<br>गुरु 21/10/2042<br>शनि 12/12/2042<br>बुध 28/01/2043<br>केतु 16/02/2043<br>शुक्र 12/04/2043 |
| <b>राहु - चंद्र</b><br>12/04/2043<br>10/10/2044  | <b>राहु - मंगल</b><br>10/10/2044<br>29/10/2045   | <b>गुरु - गुरु</b><br>29/10/2045<br>17/12/2047   | <b>गुरु - शनि</b><br>17/12/2047<br>29/06/2050  | <b>गुरु - बुध</b><br>29/06/2050<br>04/10/2052  |
| चंद्र 27/05/2043<br>मंगल 28/06/2043<br>राहु 18/09/2043<br>गुरु 30/11/2043<br>शनि 25/02/2044<br>बुध 13/05/2044<br>केतु 14/06/2044<br>शुक्र 13/09/2044<br>सूर्य 10/10/2044 | मंगल 02/11/2044<br>राहु 29/12/2044<br>गुरु 18/02/2045<br>शनि 20/04/2045<br>बुध 14/06/2045<br>केतु 06/07/2045<br>शुक्र 08/09/2045<br>सूर्य 27/09/2045<br>चंद्र 29/10/2045 | गुरु 10/02/2046<br>शनि 13/06/2046<br>बुध 02/10/2046<br>केतु 16/11/2046<br>शुक्र 26/03/2047<br>सूर्य 04/05/2047<br>चंद्र 08/07/2047<br>मंगल 22/08/2047<br>राहु 17/12/2047 | शनि 12/05/2048<br>बुध 20/09/2048<br>केतु 13/11/2048<br>शुक्र 16/04/2049<br>सूर्य 01/06/2049<br>चंद्र 17/08/2049<br>मंगल 10/10/2049<br>राहु 26/02/2050<br>गुरु 29/06/2050 | बुध 25/10/2050<br>केतु 12/12/2050<br>शुक्र 29/04/2051<br>सूर्य 09/06/2051<br>चंद्र 17/08/2051<br>मंगल 05/10/2051<br>राहु 06/02/2052<br>गुरु 26/05/2052<br>शनि 04/10/2052 |

## विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

| गुरु - केतु      | गुरु - शुक्र     | गुरु - सूर्य     | गुरु - चंद्र     | गुरु - मंगल      |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04/10/2052       | 10/09/2053       | 11/05/2056       | 27/02/2057       | 29/06/2058       |
| 10/09/2053       | 11/05/2056       | 27/02/2057       | 29/06/2058       | 05/06/2059       |
| केतु 24/10/2052  | शुक्र 20/02/2054 | सूर्य 26/05/2056 | चंद्र 09/04/2057 | मंगल 19/07/2058  |
| शुक्र 20/12/2052 | सूर्य 09/04/2054 | चंद्र 19/06/2056 | मंगल 07/05/2057  | राहु 08/09/2058  |
| सूर्य 06/01/2053 | चंद्र 29/06/2054 | मंगल 06/07/2056  | राहु 19/07/2057  | गुरु 24/10/2058  |
| चंद्र 03/02/2053 | मंगल 25/08/2054  | राहु 19/08/2056  | गुरु 22/09/2057  | शनि 17/12/2058   |
| मंगल 23/02/2053  | राहु 18/01/2055  | गुरु 27/09/2056  | शनि 09/12/2057   | बुध 03/02/2059   |
| राहु 16/04/2053  | गुरु 28/05/2055  | शनि 12/11/2056   | बुध 16/02/2058   | केतु 23/02/2059  |
| गुरु 31/05/2053  | शनि 29/10/2055   | बुध 24/12/2056   | केतु 16/03/2058  | शुक्र 21/04/2059 |
| शनि 24/07/2053   | बुध 15/03/2056   | केतु 10/01/2057  | शुक्र 05/06/2058 | सूर्य 08/05/2059 |
| बुध 10/09/2053   | केतु 11/05/2056  | शुक्र 27/02/2057 | सूर्य 29/06/2058 | चंद्र 05/06/2059 |
| गुरु - राहु      | शनि - शनि        | शनि - बुध        | शनि - केतु       | शनि - शुक्र      |
| 05/06/2059       | 29/10/2061       | 01/11/2064       | 12/07/2067       | 20/08/2068       |
| 29/10/2061       | 01/11/2064       | 12/07/2067       | 20/08/2068       | 20/10/2071       |
| राहु 15/10/2059  | शनि 21/04/2062   | बुध 20/03/2065   | केतु 04/08/2067  | शुक्र 28/02/2069 |
| गुरु 09/02/2060  | बुध 24/09/2062   | केतु 16/05/2065  | शुक्र 11/10/2067 | सूर्य 27/04/2069 |
| शनि 27/06/2060   | केतु 27/11/2062  | शुक्र 27/10/2065 | सूर्य 31/10/2067 | चंद्र 02/08/2069 |
| बुध 29/10/2060   | शुक्र 29/05/2063 | सूर्य 15/12/2065 | चंद्र 04/12/2067 | मंगल 08/10/2069  |
| केतु 19/12/2060  | सूर्य 23/07/2063 | चंद्र 07/03/2066 | मंगल 28/12/2067  | राहु 31/03/2070  |
| शुक्र 14/05/2061 | चंद्र 22/10/2063 | मंगल 04/05/2066  | राहु 26/02/2068  | गुरु 01/09/2070  |
| सूर्य 27/06/2061 | मंगल 25/12/2063  | राहु 28/09/2066  | गुरु 20/04/2068  | शनि 03/03/2071   |
| चंद्र 08/09/2061 | राहु 07/06/2064  | गुरु 06/02/2067  | शनि 23/06/2068   | बुध 14/08/2071   |
| मंगल 29/10/2061  | गुरु 01/11/2064  | शनि 12/07/2067   | बुध 20/08/2068   | केतु 20/10/2071  |
| शनि - सूर्य      | शनि - चंद्र      | शनि - मंगल       | शनि - राहु       | शनि - गुरु       |
| 20/10/2071       | 01/10/2072       | 03/05/2074       | 11/06/2075       | 17/04/2078       |
| 01/10/2072       | 03/05/2074       | 11/06/2075       | 17/04/2078       | 29/10/2080       |
| सूर्य 07/11/2071 | चंद्र 18/11/2072 | मंगल 26/05/2074  | राहु 15/11/2075  | गुरु 19/08/2078  |
| चंद्र 06/12/2071 | मंगल 22/12/2072  | राहु 26/07/2074  | गुरु 01/04/2076  | शनि 12/01/2079   |
| मंगल 26/12/2071  | राहु 19/03/2073  | गुरु 18/09/2074  | शनि 13/09/2076   | बुध 23/05/2079   |
| राहु 16/02/2072  | गुरु 04/06/2073  | शनि 21/11/2074   | बुध 08/02/2077   | केतु 16/07/2079  |
| गुरु 02/04/2072  | शनि 04/09/2073   | बुध 17/01/2075   | केतु 09/04/2077  | शुक्र 18/12/2079 |
| शनि 27/05/2072   | बुध 25/11/2073   | केतु 10/02/2075  | शुक्र 30/09/2077 | सूर्य 02/02/2080 |
| बुध 15/07/2072   | केतु 28/12/2073  | शुक्र 18/04/2075 | सूर्य 21/11/2077 | चंद्र 19/04/2080 |
| केतु 04/08/2072  | शुक्र 04/04/2074 | सूर्य 09/05/2075 | चंद्र 16/02/2078 | मंगल 12/06/2080  |
| शुक्र 01/10/2072 | सूर्य 03/05/2074 | चंद्र 11/06/2075 | मंगल 17/04/2078  | राहु 29/10/2080  |

## शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


|              |                        |
|--------------|------------------------|
| मूलांक       | 3                      |
| भाग्यांक     | 4                      |
| मित्र अंक    | 3, 5, 7, 9, 4          |
| शत्रु अंक    | 1, 8                   |
| शुभ वर्ष     | 21,30,39,48,57         |
| शुभ दिन      | शनि, बुध, शुक्र        |
| शुभ ग्रह     | शनि, बुध, शुक्र        |
| मित्र राशि   | वृश्चिक, मेष           |
| मित्र लग्न   | मकर, मिथुन, सिंह       |
| अनुकूल देवता | सूर्य                  |
| शुभ रत्न     | हीरा                   |
| शुभ उपरत्न   | जरकिन, ओपल             |
| भाग्य रत्न   | पन्ना                  |
| शुभ धातु     | रजत                    |
| शुभ रंग      | रजत                    |
| शुभ दिशा     | दक्षिणपूर्व            |
| शुभ समय      | सूर्योदय               |
| दान पदार्थ   | मिसरी, दधि, श्वेतचन्दन |
| दान अन्न     | चावल                   |
| दान द्रव्य   | दूध                    |

## रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

| रत्न     | ग्रह  | शुभता | क्षेत्र                                 |
|----------|-------|-------|---|
| नीलम     | शनि   | 100%  | सन्तति सुख, सुख                         |
| गोमेद    | राहु  | 83%   | स्वास्थ्य, सन्तति सुख                   |
| हीरा     | शुक्र | 81%   | सन्तति सुख, दुर्घटना से बचाव, स्वास्थ्य |
| मोती     | चंद्र | 73%   | धनार्जन, व्यावसायिक उन्नति              |
| लहसुनिया | केतु  | 62%   | दम्पति, व्यावसायिक उन्नति               |
| पन्ना    | बुध   | 47%   | शत्रु व रोग, नेष्ट भाग्य, व्यय          |
| पुखराज   | गुरु  | 47%   | धन हानि, पराक्रम हानि, शत्रु व रोग      |
| मूंगा    | मंगल  | 38%   | व्यावसायिक हानि, दाम्पत्य कष्ट, धन हानि |
| माणिक्य  | सूर्य | 12%   | शत्रु व रोग, हानि                       |



### दशानुसार रत्न विचार

| दशा   | समाप्ति    | माणिक्य | मोती | मूंगा | पन्ना | पुखराज | हीरा | नीलम | गोमेद | लहसुनिया |
|-------|------------|---------|------|-------|-------|--------|------|------|-------|----------|
| शुक्र | 29/10/2004 | 0%      | 61%  | 38%   | 55%   | 47%    | 94%  | 100% | 89%   | 69%      |
| सूर्य | 29/10/2010 | 38%     | 80%  | 50%   | 47%   | 55%    | 69%  | 97%  | 70%   | 50%      |
| चंद्र | 29/10/2020 | 25%     | 86%  | 38%   | 55%   | 47%    | 81%  | 100% | 70%   | 50%      |
| मंगल  | 29/10/2027 | 25%     | 80%  | 56%   | 22%   | 55%    | 81%  | 100% | 70%   | 69%      |
| राहु  | 29/10/2045 | 0%      | 61%  | 12%   | 47%   | 47%    | 88%  | 100% | 95%   | 50%      |
| गुरु  | 29/10/2061 | 25%     | 80%  | 50%   | 22%   | 61%    | 69%  | 100% | 83%   | 62%      |
| शनि   | 29/10/2080 | 0%      | 61%  | 12%   | 55%   | 47%    | 88%  | 100% | 89%   | 50%      |
| बुध   | 29/10/2097 | 25%     | 61%  | 38%   | 61%   | 47%    | 88%  | 100% | 83%   | 62%      |
| केतु  | 30/10/2104 | 0%      | 61%  | 50%   | 47%   | 47%    | 88%  | 97%  | 70%   | 75%      |

## साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

### प्रथम चक्र:

|                        |   |       |
|------------------------|---|-------|
| अष्टम स्थानस्थ ढैया    | 02/06/1995-10/08/1995 16/02/1996-17/04/1998                       | ----- |
| साढ़ेसाती प्रथम ढैया   | 06/09/2004-13/01/2005 26/05/2005-01/11/2006 10/01/2007-16/07/2007 | ----- |
| साढ़ेसाती द्वितीय ढैया | 01/11/2006-10/01/2007 16/07/2007-10/09/2009                       | ----- |
| साढ़ेसाती तृतीय ढैया   | 10/09/2009-15/11/2011 16/05/2012-04/08/2012                       | ----- |
| चतुर्थ स्थानस्थ ढैया   | 02/11/2014-26/01/2017 21/06/2017-26/10/2017                       | ----- |

### द्वितीय चक्र:

|                        |   |       |
|------------------------|---|-------|
| अष्टम स्थानस्थ ढैया    | 29/03/2025-03/06/2027 20/10/2027-23/02/2028                       | ----- |
| साढ़ेसाती प्रथम ढैया   | 13/07/2034-27/08/2036   | ----- |
| साढ़ेसाती द्वितीय ढैया | 27/08/2036-22/10/2038 05/04/2039-13/07/2039                       | ----- |
| साढ़ेसाती तृतीय ढैया   | 22/10/2038-05/04/2039 13/07/2039-28/01/2041 06/02/2041-26/09/2041 | ----- |
| चतुर्थ स्थानस्थ ढैया   | 11/12/2043-23/06/2044 30/08/2044-08/12/2046                       | ----- |

### तृतीय चक्र:

|                        |   |       |
|------------------------|---|-------|
| अष्टम स्थानस्थ ढैया    | 14/05/2054-02/09/2054 05/02/2055-07/04/2057                       | ----- |
| साढ़ेसाती प्रथम ढैया   | 24/08/2063-06/02/2064 09/05/2064-13/10/2065 03/02/2066-03/07/2066 | ----- |
| साढ़ेसाती द्वितीय ढैया | 13/10/2065-03/02/2066 03/07/2066-30/08/2068                       | ----- |
| साढ़ेसाती तृतीय ढैया   | 30/08/2068-04/11/2070   | ----- |
| चतुर्थ स्थानस्थ ढैया   | 05/02/2073-31/03/2073 23/10/2073-16/01/2076 11/07/2076-11/10/2076 | ----- |

### शनि का ढैया फल

| ढैया के प्रकार         | फल   | क्षेत्र            |
|------------------------|------|--------------------|
| अष्टम स्थानस्थ ढैया    | शुभ  | शत्रु व रोग        |
| साढ़ेसाती प्रथम ढैया   | सम   | व्यावसायिक परेशानी |
| साढ़ेसाती द्वितीय ढैया | सम   | अल्प बचत           |
| साढ़ेसाती तृतीय ढैया   | अशुभ | कम खर्च            |
| चतुर्थ स्थानस्थ ढैया   | अशुभ | धन                 |

## साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

**ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।**

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।  
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

**ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।**

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

**ॐ शं शनैश्चराय नमः ।**

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

## मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।  
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

\*\*\*\*\*

आपके जन्म समय में चन्द्रकुंडली में मंगल की स्थिति द्वादश भाव में है। अतः आप एक मांगलिक पुरुष हैं परन्तु शास्त्रानुसार आपका यह मांगलिक दोष भंग हो रहा है। अतः यह मंगल आपको अशुभ फलों की अपेक्षा शुभ फल ही अधिक मात्रा में प्रदान करेगा। इसके शुभ प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा स्वभाव व्यथिल होगा परन्तु अशुभ कार्यों की अपेक्षा आप शुभ कार्यों पर ही अधिक व्यय करेंगे। साथ ही जीवन में समस्त सांसारिक भोग्य पदार्थों का आप प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करने में समर्थ रहेंगे आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तथा आनन्द पूर्वक आप दाम्पत्य सुख का उपभोग करेंगे।

यद्यपि यह मंगल आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा तथापि इसके प्रभाव से आपके विवाह में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। परन्तु विवाह कार्य अत्यंत ही शांत एवं सुखद वातावरण में सम्पन्न होगा एवं किसी भी प्रकार की अनावश्यक समस्याओं एवं व्यवधानों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। विवाह के उपरान्त आपका दाम्पत्य जीवन सुखी एवं प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा। इसके अतिरिक्त आप जीवन में आवश्यक सुख संसाधनों तथा भौतिक सामग्री से सुसम्पन्न रहेंगे आपका शत्रु पक्ष भी हमेशा कमजोर रहेगा। अतः शत्रुओं से आपको किसी भी प्रकार परेशानी या असुविधा नहीं होगी।

आपकी चन्द्रकुंडली में मंगल द्वादश भाव में स्थित है। अतः इसके शुभ प्रभाव से आप शुभ कार्यों पर व्यय करने में सर्वदा तत्पर रहेंगे। समस्त भोग्य पदार्थों को अर्जित तथा उपभोग करने में भाग्यशाली सिद्ध होंगे। मंगल की तृतीय भाव पर दृष्टि होने से आपके पराक्रम में नित्य वृद्धि होती रहेगी। आत्मविश्वास एवं साहसपूर्वक आप अपने समस्त सांसारिक कार्यों को सम्पन्न करेंगे। समाज में अपना प्रभाव भी स्थापित करने में सफल रहेंगे। भाई बहनों से भी आप जीवन में पूर्ण सुख तथा सहयोग प्राप्त करेंगे। षष्ठ भाव पर मंगल की दृष्टि होने से शत्रु

पक्ष प्रायः निर्बल रहेगा एवं आपका विरोध करने में सर्वदा असमर्थ रहेंगे। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि भावी जीवन साथी के लिए उत्तम रहेगी। अतः आपकी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वभाव में यदा कदा उग्रता का समावेश होगा परन्तु आपके प्रति उनके मन में पूर्ण सहयोग तथा समर्पण की भावना रहेगी तथा परस्पर संबंध भी घनिष्ठ एवं प्रेम पूर्वक रहेंगे। अतः आपका दाम्पत्य जीवन अत्यंत ही सुखी एवं आनन्द पूर्वक व्यतीत होगा।

अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखी एवं आनन्दमय बनाने के लिए आपको किसी गैर मांगलिक या ऐसी मंगली कन्या से विवाह करना चाहिए जिसका मांगलिक दोष उचित रूप से भंग हो रहा हो। इस प्रकार यदि आप अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ करेंगे तो जीवन में सर्व सौभाग्य, धनैश्वर्य, मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा युक्त होकर के समाज में पूर्ण यश अर्जित करने में सफलता प्राप्त करेंगे।

इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली मिलान के समय यदि कन्या की कुंडली में भी द्वादश भाव में ही मंगल स्थित हो तो अत्यावश्यक होने पर विवाह करें अन्यथा उपेक्षा ही करें। क्यों कि समान भावों में मंगल होने से जीवन में अधिक व्यय होने के कारण यदा कदा अनावश्यक समस्याएं तथा बाधाएं उत्पन्न होंगी जिससे सुखी दाम्पत्य जीवन में तनाव या कटुता का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। अन्य भावों में मंगल स्थित होने से अशुभ फलों का प्रभाव नष्ट हो जाएगा एवं शुभ फलों के प्रभाव में वृद्धि होगी जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा। अतः सोच समझकर एवं सावधानी पूर्वक विवाह करने के लिए अन्तिम निर्णय लेना चाहिए जिससे भावी दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार से अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न न हो।

## कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।  
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

### जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

# पितृदोष विचार

## पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

## पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

### पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

### पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

**ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।**

**नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥**

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

### **पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :**

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

### **आपकी कुण्डली में पितृदोष**

- पंचम भाव में शनि स्थित है एवं राहु से दृष्ट है ।
- पंचम भाव का स्वामी शनि है तथा उस पर राहु का प्रभाव है ।
- नवम भाव का स्वामी नीच का होकर षष्ठ भाव में स्थित है ।
- लग्नेश शनि व राहु दोनों से प्रभावित है ।

आपकी कुण्डली में बुध, शुक्र और शनि के कारण पितृदोष है ।

आपकी कुण्डली में बुध पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला सदस्य द्वारा बच्चों पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ आप बहन, बुआ तथा मौसी की सेवा करके आर्शीवाद लें तथा तोते को हरी मिर्च खिलाकर पिंजड़े से मुक्त कर दें ।

आपकी कुण्डली में शुक्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला पूर्वज द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ गरीब या जरूरतमंद स्त्रियों, कन्याओं को तथा पत्नी को दान दें । 11 वर्ष से छोटी 9 कन्याओं को मंदिर में

खीर खिलायें।

आपकी कुंडली में शनि पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा दलित पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ भगवान रुद्र की पूजा करें। पीपल को जल चढ़ायें व पूजा करें। शम्मी की समिधा से हवन करें। बकरी व शनि प्रीतकारी वस्तुओं का दान करें। गरीब या जरूरतमंदों की सहायता के रूप में दान दें तथा कौए को खाने का पहला ग्रास खिलायें।

आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

### नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

## रुद्राक्ष

रुद्राक्ष को शिव का अश्रु कहा जाता है। रुद्राक्ष दो शब्दों के मेल से बना है पहला रुद्र का अर्थ होता है भगवान शिव और दूसरा अक्ष इसका अर्थ होता है आंसू। माना जाता है की रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई वह मोती स्वरूप बूँदें हैं जिसे ग्रहण करके समस्त प्रकृति में आलौकिक शक्ति प्रवाहित हुई तथा मानव के हृदय में पहुँचकर उसे जागृत करने में सहायक हो सकी।

रुद्राक्ष की भारतीय ज्योतिष में भी काफी उपयोगिता है। ग्रहों के दुष्प्रभाव को नष्ट करने में रुद्राक्ष का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, जो अपने आप में एक अचूक उपाय है। गम्भीर रोगों में यदि जन्मपत्री के अनुसार रुद्राक्ष का उपयोग किया जाये तो आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलते हैं। रुद्राक्ष की शक्ति व सामर्थ्य उसके धारीदार मुखों पर निर्भर होती है। रुद्राक्ष सिद्धिदायक, पापनाशक, पुण्यवर्धक, रोगनाशक, तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है।

एक मुखी से लेकर चौदह मुखी तक रुद्राक्ष विशेष रूप से पाए जाते हैं, उनकी अलौकिक शक्ति और क्षमता अलग-अलग मुख रूप में दर्शित होती है। रुद्राक्ष धारण करने से जहाँ आपको ग्रहों से लाभ प्राप्त होगा वहीं आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। रुद्राक्ष का स्पर्श, दर्शन, उस पर जप करने से, उस की माला को धारण करने से समस्त पापों का और विघ्नों का नाश होता है ऐसा महादेव का वरदान है, परन्तु धारण की उचित विधि और भावना शुद्ध होनी चाहिए।

रुद्राक्ष दाने पर उभरी हुई धारियों के आधार पर रुद्राक्ष के मुख निर्धारित किये जाते हैं। रुद्राक्ष के बीचों-बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक रेखा होती है जिसे मुख कहा जाता है। रुद्राक्ष में यह रेखाएं या मुख एक से 14 मुखी तक होते हैं और कभी-कभी 15 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष भी देखे गए हैं। आधी या टूटी हुई लाईन को मुख नहीं माना जाता है। जितनी लाईनें पूरी तरह स्पष्ट हों उतने ही मुख माने जाते हैं।

पुराणों में प्रत्येक रुद्राक्ष का अलग-अलग महत्व और उपयोगिता का उल्लेख किया गया है -

एक मुखी - सूर्य ग्रह - स्वास्थ्य, सफलता, मान-सम्मान, आत्म - विश्वास, आध्यात्म, प्रसन्नता, अनायास धनप्राप्ति, रोगमुक्ति तथा व्यक्तित्व में निखार और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है।

दो मुखी - चंद्र ग्रह- वैवाहिक सुख, मानसिक शान्ति, सौभाग्य वृद्धि, एकाग्रता, आध्यात्मिक उन्नति, पारिवारिक सौहार्द, व्यापार में सफलता और स्त्रियों के लिए इसे सबसे उपयुक्त माना गया है।

तीन मुखी - मंगल ग्रह- शत्रु शमन और रक्त सम्बन्धी विकार को दूर करने में सहायक होता है।

चार मुखी - बुध ग्रह- शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि - विवेक, और कामशक्ति में वृद्धि प्राप्त कराता है।

पांच मुखी - गुरु ग्रह- शारीरिक आरोग्यता, अध्यात्म उन्नति, मानसिक शांति और प्रसन्नता के लिए भी इसका उपयोग किया होता है।

छः मुखी - शुक्र ग्रह - प्रेम सम्बन्ध, आकर्षण, स्मरण शक्ति में वृद्धि, तीव्र बुद्धि, कार्यों में पूर्णता और व्यापार में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कराता है।

सात मुखी - शनि ग्रह- शनि दोष निवारण, धन-संपत्ति, कीर्ति, विजय प्राप्ति, और कार्य व्यापार आदि में बढ़ेतरा कराने वाला है।

आठ मुखी - राहू ग्रह- राहु ग्रह से सम्बंधित दोषों की शान्ति, ज्ञानप्राप्ति, चित्त में एकाग्रता, मुकदमे में विजय, दुर्घटनाओं तथा प्रबल शत्रुओं से रक्षा, व्यापार में सफलता और उन्नतिकारक है।

नौ मुखी - केतू ग्रह- केतु ग्रह से सम्बंधित दोषों की शान्ति, सुख-शांति, व्यापार वृद्धि, धारक की अकालमृत्यु नहीं होती तथा आकस्मिक दुर्घटना का भी भय नहीं रहता।

10 मुखी - भगवान महावीर- कार्य क्षेत्र में प्रगति, स्थिरता व वृद्धि, सम्मान, कीर्ति, विभूति, धन प्राप्ति, लौकिक-पारलौकिक कामनाएँ पूर्ण होती हैं।

11 मुखी - इंद्र ग्रह- आर्थिक लाभ व समृद्धिशाली जीवन, किसी विषय का अभाव नहीं रहता तथा सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं।

12 मुखी - भगवान विष्णु ग्रह- विदेश यात्रा, नेतृत्व शक्ति प्राप्ति, शक्तिशाली, तेजस्वी बनाता है। ब्रह्मचर्य रक्षा, चेहरे का तेज और ओज बना रहता है। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा मिट जाती है।

13 मुखी - इंद्र ग्रह- सर्वजन आकर्षण व मनोकामना प्राप्ति, यश-कीर्ति, मान-प्रतिष्ठा व कामदेव का प्रतीक है। उपरी बाधा और नजर दोष से बचाव के लिए विशेष उपयोगी है।

14 मुखी - शनि ग्रह- आध्यात्मिक उन्नति, शक्ति, धन प्राप्ति व कष्टनिवारक हैं। शनि की साढ़ेसाती या ढैया में विशेष कष्टनिवारक है।

### आपकी कुंडली और रुद्राक्ष

आपकी कुंडली तुला लग्न की है। तुला लग्न का स्वामी शुक्र होने के कारण आपके व्यक्तित्व में शुक्र का प्रभाव दिखाई देता है। आपका स्वभाव सौम्यता लिये होता है। आप व्यवहार पसंद हैं। वायु तत्व होने के कारण आप अक्सर योजनाएं बनाते हुए मिल जाते हैं परन्तु उन पर क्रियान्वयन नहीं कर पाते। आपको भोग विलास की वस्तुओं का उपभोग करना और खरीदना ज्यादा पसंद हो सकता है। नई टेक्नोलॉजी का स्वागत करते हैं। नये चिन्तन व परीक्षण करने वाले (क्रियटिव) होते हैं और संगीत, गायन, नृत्य, एक्टिंग आदि चीजे पसंद करते हैं।

आप अपनी साज-सज्जा और कपड़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। आपको वात संबंधी पेशानी अधिक रहती है। आप बहुत जल्दी ही हर माहौल में समझौता कर लेते हैं।

हमेशा आपका अलग ही रूप देखने को मिलता है। आप मे हाजिर जवाब क्षमता अद्भूत है। आप एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। आदर्शवादी और साहित्यप्रिय होने के कारण आपकी लेखन क्षमता भी अच्छी होती है।

कुंडली के 12 भावों में से 3 भाव विशेष रूप से अशुभ भाव होने के कारण अनिष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। 6, 8 व 12 वें भाव को त्रिक भावों के नाम से जाना जाता है। तथा त्रिक भावों को शुभ भाव नहीं कहा जाता है। इन भावों का संबन्ध जिन भी ग्रहों व भावेषों से बनता है उनकी शुभता में कमी आती है। कुंडली के आठवें घर से मृत्यु, दुर्घटना, क्लेश, विघ्न, अकाल मृत्यु और परेशानियों का विचार किया जाता है। कुंडली का बारहवां भाव व्यय भाव, हानि भाव, मोक्ष भाव, बंधन भाव तथा शयन भाव के नाम से जाना जाता है। त्रिक भावों में यह सबसे अंतिम भाव है। उपरोक्त विषयों के अलावा इस भाव से कोर्ट कचहरी, अस्पताल, कारावास आदि का विश्लेषण भी किया जाता है। इस भाव में किसी भावेश का बैठना या इस भावेश का किसी ग्रह या भावेश से सम्बन्ध अशुभता समझा जाता है।

इन भावों के स्वामियों और इन भावों में स्थित ग्रहों में अशुभता का अंश पाया जाता है। जिसके फलस्वरूप ये आपके जीवन को समय समय पर बाधित करते रहते हैं।

आपके तुला लग्न के लिए गुरु षष्ठेश व तृतीयेश हैं। षष्ठेश व तृतीयेश गुरु आपके धन में अल्पता, ऋणग्रस्तता, संतानविरोधी, न्यायालयों में अधिक व्यय, जीवन साथी से अनबन तथा जीवन में समय समय पर धोखे की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।

शुक्र अष्टमेश व लग्नेश है आप चतुराई से धन-संग्रह, कुटुम्बियों से परेशानियां, स्वास्थ्य में न्यूनता दे सकता है। शुक्र अष्टमेश है, इसलिए आपके वैवाहिक सुखों में कमी का कारण बन सकता है। जीवन साथी के प्रति निष्ठावान रहने से गृहस्थ जीवन के कष्टों में कमी कर सकते है।

बुध द्वादशेश और नवमेश हैं। नवमेश व द्वादशेश बुध आपके लिए व्यय, हानियों और दंड की स्थिति बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह आपके विवेक, वाक्शक्ति, भाग्य, धर्म, यश में कमी भी करेंगे। आपमें तुरन्त निर्णय की क्षमता, न्यायालयों पर व्यय, राज्य व भाग्य के क्षेत्र में हानि दे सकता है।


आपकी कुंडली के छठे भाव में सूर्य स्थित हैं। इस भाव में सूर्य शत्रुनाशक, क्रोधी, घमंडी, कामातुर, मामा -मौसी को कष्ट, निरुत्साही, छाती के रोग, ऋणी सम्बन्धी कष्ट दे सकते हैं। हृदय सम्बन्धी रोग भी स्वास्थ्य में कमी का कारण बन सकते हैं।

बुध षष्ठ भाव में स्थित हैं, बुध की यह स्थिति आपके अपमान का कारण, चतुरता से शत्रुओं का दमन, मामा सुख प्राप्ति का कारक, मित्रों-छोटे भाई बहनों से शत्रुवत सम्बन्ध दे सकता है। परोपकारी, श्रेष्ठ वक्ता, आलोचक और व्याधिक्य का गुण देता है।

इन सभी के फलों में शुभता प्राप्त करने के लिए आपको 1, 4, 5, 6 मुखी रुद्राक्षों का कवच धारण करना चाहिए। यह कवच सफेद धागे में डालकर सोमवार को गंगाजल से शुद्ध

कर ॐ नम शिवाय मंत्र के 108 बार जप कर धारण करना चाहिए। तदुपरांत शिवजी को कच्चा दूध चढ़ाए। क्षमतानुसार दान करे। इस प्रकार आपके जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलेगा एवं विशेष कष्टों में न्यूनता आएगी। कुंडली के सभी ग्रहों को शुभता प्रदान करने के लिए आप शिव कृपा रुद्राक्ष माला जो एक से चौदह मुखी रुद्राक्ष से निर्मित होती है, भी धारण कर सकते हैं। एक से चौदह मुखी रुद्राक्ष माला अद्भुत व चमत्कारी फल प्रदान करती हैं।

उपरोक्त कवच बिना दशा, गोचर विचार के आपको जीवन भर धारण करना चाहिए। क्योंकि यह कवच जन्म लग्न एवं उसमें स्थित ग्रहों के अवगुणों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है।



## स्वास्थ्य, व्यक्तित्व एवं प्रकृति

आपके जन्म समय में लग्न में तुला राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी शुक्र है। सामान्यतया तुला लग्न में उत्पन्न जातक स्वस्थ सुन्दर एवं आकर्षक व्यक्तित्व के पुरुष होते हैं तथा अन्य जनों को प्रभावित करने में समर्थ रहते हैं। इनकी प्रवृत्ति हास्य प्रिय होती है तथा बच्चों के प्रति निश्चल प्रेम के भाव को मन में रखते हैं। सुन्दर वस्तुओं या दृश्यों को देखना इनको रुचिकर लगता है ये स्वभाव से ही अन्य जनों को कष्ट न देने वाले होते हैं तथा सभी लोगों से समानता का व्यवहार करते हैं फलतः सामाजिक जनों के मध्य इनकी प्रतिष्ठा बनी रहती है एवं यश भी प्राप्त होता है। कला के प्रति इनका भावनात्मक लगाव रहता है तथा इस क्षेत्र में परिश्रम एवं बुद्धिमता से धनैश्वर्य एवं प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं। नीति के ये ज्ञाता होते हैं। अतः राजनीति के क्षेत्र में इनको नेतृत्व आदि की भी प्राप्ति हो जाती है लेकिन इनका कोई एक सिद्धांत नहीं होता तथा समयानुसार सिद्धांतों को परिवर्तित करते हैं।

अतः इसके प्रभाव से आप शारीरिक सौन्दर्य दर्शनीय रहेगा तथा अपने आकर्षक व्यक्तित्व से अन्य जनों को प्रभावित करने में समर्थ होंगे। प्राकृतिक सुन्दरता के प्रति भी आकर्षित रहेंगे तथा समयानुसार इन दर्शनीय क्षेत्रों का भ्रमण भी कर सकते हैं। कला के प्रति आपकी तीव्र रुचि रहेगी तथा इस क्षेत्र में आप उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं।


सामाजिक जनों के मध्य आपका समानता का व्यवहार रहेगा तथा किसी प्रकार का भेद भाव नहीं रखेंगे। कार्यक्षेत्र में भी आप प्रभावशाली होंगे जिससे अधिकारी तथा सहयोगी आपसे प्रसन्न रहेंगे फलतः आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे तथा धनैश्वर्य एवं वैभव सुख संसाधनों को अर्जित करके प्रसन्नतापूर्वक इनका उपभोग करेंगे।

लग्न में राहु के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परन्तु मानसिक उद्विग्नता यदा कदा विद्यमान रहेगी। अपने समस्त सांसारिक शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को आप परिश्रम एवं बुद्धिमता से सम्पन्न करेंगे जिससे आपके उन्नतिमार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही भौतिकता के प्रति आपके मन में विशेष आकर्षण रहेगा। अपने कार्यों को करने में आप अत्यंत ही दक्षता का परिचय देंगे तथा व्यावहारिक कुशलता के द्वारा अन्य जनों को प्रभावित रखेंगे। आप यत्नपूर्वक सत्कर्मों के द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करेंगे। अर्थिक दृष्टि से आप सुदृढ़ रहेंगे तथा आय स्रोतों में वृद्धि करके इच्छित धन एवं वैभव प्राप्त करेंगे।

आप में विद्वता का भाव भी विद्यमान होगा तथा कला एवं संगीत के प्रति रुचिशील रहेंगे तथा परिश्रम एवं योग्यता से इस क्षेत्र में उन्नति करेंगे। अवसरानुकूल राजनीति में भी आप सक्रिय होंगे तथा अन्य जनों के सहयोग से इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में समर्थ रहेंगे।

धर्म के प्रति आपकी रुचि अवश्य रहेगी परन्तु धार्मिक कार्यकलापों या अनुष्ठानों को अल्प मात्रा में ही सम्पन्न करेंगे परन्तु गंगास्नान या तीर्थ यात्रा आपकी होती रहेगी। मित्र वर्ग में आप आदरणीय तथा प्रिय रहेंगे तथा इनसे आप इच्छित लाभ एवं सहयोग समय समय पर प्राप्त करेंगे इस प्रकार आप विद्वान उत्साही परिश्रमी एवं पराक्रमी पुरुष होकर सुख संसाधन

अर्जित करके उनका उपभोग करेंगे ।



## धन, परिवार, आंख एवं वाणी

आपके जन्म समय में द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि उदित हुई है जिसका स्वामी मंगल है। अतः इसके प्रभाव से आप जीवन में अपने प्रयत्न एवं परिश्रम से धनार्जन करने में सफल रहेंगे। आपको पैतृक सम्पत्ति की प्राप्ति अल्प मात्रा में ही होगी परन्तु बहुमूल्य रत्न तथा धातुओं को आप अपनी योग्यता तथा लगन से अर्जित करने में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी रुचि जायदाद या भूमि संबंधी कय विक्रय या सम्बन्धित कार्यों में रहेगी जिससे आपको प्रचुर मात्रा में लाभ होगा। आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे तथा परिवार के सहयोग से जीवन में इच्छित उन्नति तथा सम्मान प्राप्त करेंगे। लेकिन आपात्काल में स्वयं को व्यवस्थित करने में असुविधा की अनुभूति करेंगे।

पारिवारिक जनों की प्रसन्नता तथा सुविधा कार्यों में आप सतत यत्नशील रहेंगे तथा पारिवारिक शान्ति एवं सुख संसाधनों पर काफी व्यय करेंगे जिससे वे लोग सन्तुष्ट रह सकें। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी तथा अन्य जनों को तर्क पूर्ण वाणी से प्रभावित करने में समर्थ रहेंगे तथा आपसे लोग सहमत भी रहेंगे। मिष्ठान के आप प्रिय रहेंगे तथा इसके भक्षण से आपको किंचित प्रसन्नता प्राप्त होगी लेकिन प्रौढ़ावस्था में आप नेत्र संबंधी कष्ट प्राप्त कर सकते हैं इसके अतिरिक्त धार्मिक परम्पराओं का आप पूर्ण पालन करेंगे तथा शुभ एवं मंगल कार्य भी समय समय पर करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त सज्जन पुरुषों के प्रति आपके मन में हमेशा आदर का भाव रहेगा।

## शिक्षा, माता, वाहन एवं जायदाद

आपके जन्मसमय में चतुर्थ भाव में मकर राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी शनि है। अतः इसके प्रभाव से जीवन में आप समस्त सांसारिक एवं भौतिक सुखों को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। आपको आधुनिक सुख-संसाधनों की भी प्राप्ति होगी जिसका सुखपूर्वक उपभोग करेंगे। आप एक समृद्ध एवं वैभवशाली व्यक्ति होंगे तथा समाज में आदरणीय व्यक्ति माने जायेंगे।

आप एक सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे तथा चल एवं अचल सम्पत्ति से युक्त होकर उसके स्वामित्व को प्राप्त करेंगे। विवाह के बाद पत्नी के प्रभाव या सहयोग से भी आपको वांछित चल एवं अचल सम्पत्ति की प्राप्ति होगी। इससे आपकी समृद्धि में वृद्धि होगी तथा स्वपरिश्रम एवं योग्यता से आपको समय समय पर धन सम्पत्ति की प्राप्ति होती रहेगी। आप चल एवं अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति से युक्त होंगे। अतः इन पर आप इच्छित निवेश कर सकते हैं।

जीवन में आपको उत्तम घर की प्राप्ति होगी तथा यह विस्तृत क्षेत्र में होगा तथा आधुनिक सुख-सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित रहेगा। आप भी व्यक्तिगत रूप से इसके आकर्षण एवं सुन्दरता बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील होंगे। आपका घर किसी समृद्ध कालोनी में होगा तथा पड़ोसी भी बुद्धिमान एवं शिक्षित होंगे एवं आपसी संबंधों में भी मधुरता रहेगी। इसके अतिरिक्त उत्तम वाहन से भी आप युक्त होंगे तथा इनकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है।

आपकी माताजी सुन्दर, शिक्षित, बुद्धिमान एवं आधुनिक विचारों की महिला होंगी तथा उनका व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा। वह एक व्यवहार कुशल महिला होंगी तथा पारिवारिक सदस्यों का मर्जी से लालन पालन करेंगी जिससे सभी लोग उनको वांछित आदर एवं सम्मान प्रदान करेंगे। आपके प्रति उनके मन में विशेष वात्सल्य का भाव होगा तथा समय समय पर उनसे आपको वांछित आर्थिक एवं नैतिक सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। आपकी उन्नति में भी उनका मुख्य योगदान होगा। आप भी उनके प्रति श्रद्धा एवं आज्ञाकारिता का भाव रखेंगे तथा सुख-दुःख में उन्हें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे इससे आपसी संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी।

विद्याध्ययन में आपकी प्रारंभ से ही रुचि होगी तथा स्वपरिश्रम एवं योग्यता से आप छोटी कक्षाओं से ही अच्छे अंक लेकर परीक्षाएं उत्तीर्ण करेंगे। स्नातक परीक्षा भी आप संतोष जनक रूप से उत्तीर्ण करेंगे। इससे आपके मन में उत्साह के भाव में वृद्धि होगी तथा भविष्य में भी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए स्वयं को तैयार करेंगे। स्वजनों एवं संबंधियों से भी आप वांछित आदर, स्नेह एवं प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

## प्रणय सम्बन्ध, सन्तान एवं बुद्धि

आपके जन्म समय में पंचमभाव में कुम्भ राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी शनि है। तथा लग्नेश शुक्र भी पंचमभाव में ही स्थित है। अतः इसके प्रभाव से आप एक बुद्धिमान व्यक्ति होंगे तथा आपके सभी कार्य-कलापों में उत्कृष्ट बुद्धिमता की छाप होगी। इससे सभी लोग आपसे प्रभावित होंगे तथा आपको यथोचित सम्मान प्रदान करेंगे। आप में सही समय में तत्काल सही निर्णय लेने की शक्ति भी विद्यमान होगी जिससे समान्यतया कार्यों में आपको सिद्धि प्राप्त होगी वैदिक साहित्य दर्शन एवं धर्म में आपकी पूर्ण रुचि होगी तथा उनके ज्ञानार्जन से सामाजिक प्रभाव में वृद्धि करेंगे। संगीत कला एवं कविता तथा पाश्चात्य साहित्य के प्रति आपकी ज्ञानार्जन की इच्छा होगी तथा स्वपरिश्रम से इस क्षेत्र का न्यूनाधिक ज्ञान अर्जित करने में समर्थ होंगे।

पंचमभावास्थ शुक्र के प्रभाव से प्रेम-प्रसंगों में आपकी विशेष रुचि होगी तथा मनोरंजन शान्ति एवं आत्म सन्तुष्टि के लिए आप प्रेम-प्रसंग स्थापित करेंगे। आपके प्रेम में भौतिक तथा भावात्मक दोनों प्रकार का आकर्षण विद्यमान होगा। अतः इस क्षेत्र में आपको मर्यादा तथा नैतिकता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए जिससे अनावश्यक समस्याओं एवं परेशानियों का सामना न करना पड़े।

संतति भाव में शुक्र के प्रभाव से आपको यथोचित समय पर संतति की प्राप्ति होगी तथा कन्या संतति अधिक होगी। आपकी संतति बुद्धिमान योग्य एवं पराक्रमी होगी तथा इन्हीं गुणों से जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। माता-पिता के प्रति उनके मन में पूर्ण श्रद्धा एवं सम्मान की भावना होगी तथा उनकी आज्ञा का पालन भी करेंगे। शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को वे माता-पिता की सलाह से सम्पन्न करेंगे। इससे आपस में सद्भाव एवं विश्वास का भाव बना रहेगा। पिता की अपेक्षा माता के प्रति बच्चों का विशेष अपनत्व का भाव होगा एवं अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान वे माता के माध्यम से ही सम्पन्न करेंगे लेकिन आदर का भाव दोनों के प्रति समान होगा। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था में माता-पिता की तन-मन-धन से सेवा करेंगे तथा अपनी ओर से उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। अतः इस संदर्भ में आप भाग्यशाली व्यक्ति होंगे।

अध्ययन के क्षेत्र में आपकी संतति योग्य सिद्ध होगी तथा प्रारंभ से ही वे अध्ययन के क्षेत्र में विशेष उन्नति एवं सफलताएं अर्जित करेंगे। आप भी उनकी शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखेंगे तथा उसमें आवश्यक व्यय करके आधुनिक परिवेश में उन्हें शिक्षा दिलाएंगे। वे भी स्वभाव से मृदु, सुन्दर, सक्रिय एवं व्यवहार कुशल होंगे तथा अन्य जनों को अपने कार्य कलापों तथा बुद्धिमता से प्रभावित एवं प्रसन्न रखेंगे जिससे वे वांछित स्नेह तथा सम्मान प्रदान करेंगे। इससे आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तथा संतति पर आप गौरवान्वित होंगे।

## परिवार, विवाह एवं साझेदार

आपके जन्म समय में सप्तम भाव में मेष राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी मंगल है तथा केतु भी सप्तम भाव में ही स्थित है सामान्यतया सप्तम भाव में मेष राशि की स्थिति से जातक का सहयोगी तेजस्वी पराक्रमी एवं धनाढ्य होता है एवं केतु के प्रभाव से उसमें उग्रता के भाव की उत्पत्ति होती है लेकिन सांसारिक कार्यों को करने में दक्ष होता है।

अतः इसके प्रभाव से आपकी पत्नी तेजस्वी स्वभाव की महिला होंगी सांसारिक कार्य कलापों को वह चतुराई से सम्पन्न करेंगी तथा उनके साहसिक कार्यों से अन्य लोग भी उनसे प्रभावित होंगे। भौतिकता की ओर भी उनकी रुचि रहेगी तथा आधुनिक सुख संसाधनों को अर्जित करने के लिए तत्पर रहेगी। केतु के प्रभाव से कर्तव्य परायणता भी उनमें होगी जिससे परिवार एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगी।

आपकी पत्नी लालिमा लिए गौरवर्ण की महिला होंगी तथा कद भी मध्यम रहेगा शारीरिक सौन्दर्य उनका दर्शनीय होगा एवं शरीर के अन्य अंग प्रत्यंग भी पुष्ट एवं सुडौल होंगे जिससे उनके आकर्षण में वृद्धि होगी तथा व्यक्तित्व में निखार आएगा। केतु के प्रभाव से पाक शास्त्र में उनकी रुचि होगी तथा उनके द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन से सभी लोग प्रभावित होंगे।

सप्तम भाव में केतु के प्रभाव से यद्यपि विवाह में कुछ विलम्ब होगा परन्तु अनावश्यक व्यवधान नहीं होंगे। आपका विवाह बंधु संबंधी या विज्ञापन के माध्यम से सम्पन्न होगा। विवाह के बाद आपका दाम्पत्य जीवन सामान्यतया सुखी रहेगा तथा एक दूसरे के प्रति मन में प्रेम तथा सदभाव होगा। साथ ही सांसारिक महत्व के कार्यों को एक दूसरे की सलाह एवं सहमति से पूर्ण करेंगे जिससे समानता एवं विश्वसनीयता बनी रहेगी परन्तु पत्नी के उग्रस्वभाव से यदा कदा संबंधों में तनाव उत्पन्न होगा अतः ऐसे समय पर संयम से व्यवहार करना चाहिए।

आपका विवाह किसी प्रतिष्ठित परिवार में होगा तथा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उनकी स्थिति अच्छी रहेगी। विवाह के बाद सास ससुर से आपके औपचारिक संबंध रहेंगे तथापि अवसरानुकूल उनसे आपको नैतिक तथा अन्य प्रकार से सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी।

सास ससुर के प्रति आपकी पत्नी का सेवा भाव अल्प ही रहेगा तथा सुख दुख में वह उनका विशेष ध्यान नहीं रखेंगी देवर एवं ननद भी उनकी तेजस्विता एवं कटुवाणी से अप्रसन्न रहेंगे तथा उन्हें यथोचित सम्मान एवं सहयोग नहीं देंगे।

व्यापार या किसी महत्वपूर्ण कार्य में साझेदारी के लिए स्थिति विशेष अनुकूल नहीं रहेगी। अतः यदि अत्यावश्यक न हो तो साझेदारी की उपेक्षा ही करनी चाहिए।

## व्यवसाय, पिता एवं सामाजिक स्तर

आपके जन्म समय में दशमभाव में कर्क राशि उदित हो रही थी जिसका स्वामी चन्द्रमा है। साथ ही मंगल भी मित्र एवं नीचराशि में दशमभाव में ही स्थित है। कर्क राशि जलतत्व एवं मंगल अग्नितत्व युक्त ग्रह है। अतः इनके प्रभाव से आपका कार्यक्षेत्र बौद्धिक एवं मानसिक क्रिया प्रधान होगा तथा समय समय पर आप इसमें परिवर्तन भी करते रहेंगे। ऐसे सामायिक परिवर्तनों से आपको यथोचित लाभ की प्राप्ति होगी तथा मानसिक रूप से भी सन्तुष्टि की अनुभूति करेंगे।

दशमभाव में कर्क राशि में मंगल के प्रभाव से आपके लिए आजीविका के क्षेत्र औषधि विज्ञान, जलसेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, होटल प्रबन्धन, कोरियर सेवा अग्नि से संबंधित विभाग, पराक्रमी क्षेत्र, जहाजरानी आदि विभाग उन्नति एवं सफलता की दृष्टि से उत्तम एवं अनुकूल रहेंगे। इनमें कार्य करने से आप सुगमता पूर्वक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे तथा अनावश्यक समस्याओं एवं व्यवधानों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अतः आपको यत्नपूर्वक उपरोक्त क्षेत्रों में ही अपनी आजीविका का चयन करना चाहिए।

व्यापारिक दृष्टि से आपके लिए सोना चांदी आदि धातु का कार्य, विद्युत उपकरणों का उत्पादन, दूध, घी एवं दही का व्यापार, वस्त्र एवं कलात्मक वस्तुओं का क्रय विक्रय या आयात निर्यात संबंधी कार्यों से आपको वांछित लाभ एवं धन की प्राप्ति होगी तथा इसमें उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। साथ ही प्रगति में आपको अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ेगा। अतः यत्नपूर्वक आपको इन्हीं क्षेत्रों या वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए।

दशमभाव में कर्क राशिस्थ मंगल के प्रभाव से जीवन में आपको मान प्रतिष्ठा एवं सम्मान की प्राप्ति होगी तथा किसी उच्चाधिकार प्राप्त को अर्जित करेंगे। साथ ही आपको यश की भी प्राप्ति होगी एवं सामाजिक या सांस्कृतिक संस्था या क्लब आदि में भी कोई सम्मानित पद प्राप्त करेंगे इससे आपकी यश एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी लेकिन नीचस्थ मंगल के प्रभाव से इसमें आपको विलम्ब तथा व्यवधानों का भी सामना करना पड़ेगा अतः इससे आपको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए तथा ईमानदारी एवं परिश्रम पूर्वक अपने कार्य कलापों को सम्पन्न करना चाहिए।

आपके पिताजी तेजस्वी पराक्रमी बुद्धिमान एवं आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे परन्तु स्वभाव में उग्रता का भाव होगा। साथ ही सामाजिक जनों के मध्य वे प्रभावशाली होंगे तथा उनके कल्याणकारी कार्यों को करने में तत्पर रहेंगे। आपके प्रति उनके मन में वात्सल्य का भाव होगा तथा उचित शिक्षा का प्रबंध करने में समर्थ होंगे। साथ ही कार्यक्षेत्र में भी वे आपको काफी सहयोग देंगे तथा उनके प्रभाव से आपको यथोचित सम्मान एवं आदर प्राप्त होगा। आप भी पिता के सम्मान में वृद्धि करने के लिए परिश्रम पूर्वक अपने कार्य कलापों को सम्पन्न करेंगे। इसके अतिरिक्त आप दोनों के मध्य वैचारिक एवं सैद्धान्तिक मतभेद भी होंगे जिससे संबंधों में मधुरता कम ही रहेगी एवं शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में एक दूसरे का सहयोग अल्प मात्रा में ही लेंगे। अतः ऐसी परिस्थितियों की आपको यत्नपूर्वक उपेक्षा करनी चाहिए।

## वार्षिक फलादेश - 2026

इस वर्ष मीन राशि के शनि छटे भाव में रहेंगे। 25 नवम्बर तक कुम्भ राशि के राहु पंचम भाव में रहेंगे और उसके बाद मकर राशिमेंचतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। वर्ष के पूर्वार्द्ध में मिथुन राशि केगुरुनवम भाव में रहेंगे और 2 जून को कर्क राशिमेंदशम भाव में गोचर करेंगे और फिर से अतिचारी होकर 31 अक्टूबर को सिंह राशि एवं एकादशभाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस वर्ष मंगल ग्रह अपनी सरल गति से गोचर करेंगे। वर्षारम्भ से 1 फरवरी तक शुक्र अस्त रहेंगे और अक्टूबर में भी 14 दिन के लिए अस्त होंगे।

### व्यवसाय

कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपने भाग्य के द्वारा व्यवसाय में उन्नति करेंगे। गुरु एवं शनि ग्रह का अनुकूल स्थान में होने से आपका चौमुखी विकास होगा। आय के मार्ग प्रशस्त होंगे। उच्च अधिकारियों या वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। जिससे आपके कार्य क्षेत्र में सफलता का प्रतिशत और बढ़ सकता है।

02 मई के बाद नौकरी करने वाले व्यक्तियों का पदोन्नति के साथ-साथ इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण भी हो सकता है। भूमि से सम्बन्धित कार्य करने वाले व्यक्तियों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा।

### धन संपत्ति

आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष शुभ फलदायक रहेगा। व्यापारिक अनुकूलता होने के कारण इच्छित बचत करने में सफल रहेंगे। वर्ष के पूर्वार्द्ध में आप भौतिक सुख सुबिधा पर भी खर्च करेंगे। बच्चों की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी पर भी आपका पैसा खर्च हो सकता है।

02 जून के बाद चतुर्थ स्थान पर गुरु के दृष्टि प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन के साथ रत्न आभुषण इत्यादि वस्तुओं की प्राप्ति होगी। अपने परिवार के सदस्यों तथा रिश्तेदारों केमांगलिक कार्यों में भी धन का व्यय होगा। 31 अक्टूबर के बाद धनागम में वृद्धि होगी। जिससे आप आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सफल रहेंगे।

### घर-परिवार, समाज

पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष अनुकूल रहेगा। व्यापारिक व्यस्तता के कारण परिजनों को अधिक समय नहीं दे पाएंगेपरन्तु आपके परिवार में सुख शान्ति का वातावरण बना रहेगा। तृतीय स्थान पर गुरु ग्रह के दृष्टि प्रभाव से सामाजिक उत्थान के लिए आपका पूर्ण प्रयास रहेगा।

02 जून के बाद पारिवारिक रूप से समय और भी अनुकूल हो रहा है। आपके परिवार में परस्पर सहयोग एवं भावनात्मक प्रेम में वृद्धि होगी। परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा और आपसी आकर्षण भी बढ़ेगा। पिताजी के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। मालुत पक्ष के साथ आपके संबंध मधुर होंगे।

## संतान

संतान की दृष्टि से यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वर्ष के पूर्वार्द्ध में आपके बच्चे को सफलता प्राप्त के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। दूसरी संतान के लिए समय अच्छा है। उसकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे।

02 जून के बाद समय अधिक प्रभावित हो रहा है। उस समय पंचमस्थ राहु संतान संबंधित परेशानि उत्पन्न कर सकता है। गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो सकता है। इस समय के अंतराल में बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। 31 अक्टूबर के बाद आपके बच्चों का उन्नति होगी।

## स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा रहेगा। नवमस्थ गुरु की पंचम दृष्टि लग्न पर होगी उसके प्रभाव से शारीरिक आरोग्यता की प्राप्ति व कार्य क्षमताओं में वृद्धि के प्रबल संकेत है। मानसिक शांति, प्रसन्नता एवं सकारात्मक सोच में वृद्धि होगी।

वर्ष के उत्तरार्द्ध में स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना आवश्यक होगा। खाने-पीने की वस्तुओं में परहेज रखें। कभी कभी स्वस्थ रहते हुए भी कमजोरी जैसा अनुभव होता रहेगा। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठकर घूमना आपके शरीर के लिए लाभदायक रहेगा।

## करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा

प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों को सफलता प्राप्त होगी। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में हैं उनको नौकरी मिल सकती है। तकनीकी शिक्षा या व्यवसायिक शिक्षा के लिए भी यह समय श्रेष्ठतम रहेगा।

02 जून के बाद विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। पंचम स्थान का राहु उनकी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न कर सकता है।

## यात्रा-तबादला

वर्ष के पूर्वार्द्ध में छोटी-मोटी यात्राओं के साथ साथ आपकी लम्बी यात्राएं भी होंगी। ये यात्राएं आपके लिए अनुकूल या उन्नतिकारक भी सिद्ध हो सकती हैं। इन यात्राओं के दौरान आपकी किसी के साथ मित्रता भी हो सकती है। 02 जून के बाद नौकरी करने वाले व्यक्तियों का मानोनुकूल स्थान पर स्थानान्तरण होगा।

अपने घर से दूर रहने वाले व्यक्तियों की जन्म स्थल की यात्रा हो सकती है अथवा अपने पूरे परिवार सहित दर्शनीय स्थलों की यात्रा का आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। द्वादश स्थान पर शनि ग्रह के दृष्टि प्रभाव से आपकी विदेश यात्रा होगी।

## धर्म कार्य एवं ग्रह शांति

वर्ष के पूर्वार्द्ध में नवमस्थ गुरु के प्रभाव से आप कोई विशेष अनुष्ठान संपन्न करेंगे। आप योग, ध्यान, एवं अपने गुरु के द्वारा दिये गये मन्त्रों का पाठ करेंगे। गुरु ग्रह के गोचर के बाद आप दान पुण्य व गरीबों की सहायता अधिक करेंगे।

- प्रत्येक दिन सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल दें।
- गणेशजी के मन्त्र का पाठ करें एवं नित्य प्राणायाम करें।
- एकनारियल अपने सिर से सात बार घुमाकर बहते हुए पानी में बहा दें।



## वार्षिक फलादेश - 2027

वर्ष के पूर्वार्द्ध में मीनस्थ शनि छे भव में रहेंगे और 3 जून को मेष राशि एवं सप्तम भव में प्रवेश करेंगे और वक्री होकर 03 अक्टूबर को फिर से मीन राशि एवं छे भव में आजाएंगे। मकर राशि के राहु इस वर्ष चतुर्थ भव में रहेंगे। वक्री गुरु 25 जनवरी को कर्क राशि एवं दशम भव में प्रवेश करेंगे और मार्गी होकर 26 जून को सिंह राशि एवं एकादश भव में गोचर करेंगे और फिर से अतिचारी होकर 26 नवम्बर को कन्या राशि एवं द्वादश भव में प्रवेश कर जाएंगे। 26 अप्रैल से 5 जुलाई तक मंगल वक्री होकर सिंह राशि एवं एकादश भव में रहेंगे। 21 जुलाई से 7 सितम्बर तक शुक्र अस्त रहेंगे।

### व्यवसाय

कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे। वर्ष के पूर्वार्द्ध में आप कोई नया कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं या किसी अनुभवी व्यक्ति से मिल कर अपने व्यापार में उन्नति के लिए कोई नई योजना भी बना सकते हैं। चतुर्थस्थ राहु के प्रभाव से नौकरी करने वाले व्यक्तियों का अपने घर से दूर स्थानान्तरण हो सकता है। प्रोपर्टी से संबंधित काम करने वाले व्यक्तियों को अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा।

जून के बाद सप्तम स्थान पर शनि एवं गुरु ग्रह के गोचरीय प्रभाव से आपके कार्य व्यवसाय में उत्तम वृद्धि होगी। उच्च अधिकारियों व वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। सफलता के पीछे आपकी पत्नी का पूर्ण सहयोग होगा। यदि आप साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें इच्छित लाभ प्राप्त होगा और अपने साझेदार से संतुष्ट रहेंगे।

### धन संपत्ति

आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष उत्तम रहेगा। द्वितीय स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से रत्न, आभूषण इत्यादि वस्तुओं की प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। षष्ठस्थ शनि पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपके शत्रु पक्ष से आपको धन लाभ होगा। धन निवेश के लिए भी अच्छा समय चल रहा है।

जून के बाद एकादश स्थान में गुरु ग्रह के गोचरीय प्रभाव से आपका रुको हुआ धन मिल सकता है व धनागम में वृद्धि होगी। इस समय कर्जे इत्यादि से मुक्ति मिल सकती है। धन संचित करने में आपकी पत्नी का अहम सहयोग होगा। भाई-बहन या पुत्र के विवाह के अवसर पर भी धन खर्च हो सकता है।

### घर-परिवार, समाज

पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष सामान्य रहेगा। चतुर्थस्थ राहु के प्रभाव से आपके परिवार में विषमता की स्थिति बनी रहेगी। परिवार में एक दूसरे के प्रति वैचारिक मतभेद हो सकता है। परन्तु आप अपनी बौद्धिक शक्ति के अनुसार पारिवारिक वातावरण अनुकूल करने की कोशिश करेंगे और आप सफल भी होंगे। आपकी माता का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है।

दशमस्थ गुरु के कारण आपको पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा।

26 जून के बाद आपको प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो जाएगा। विवाहित व्यक्तियों का धर्मपत्नी के साथ समन्वय मधुर होगा। तृतीय स्थान में गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप सामाजिक कल्याण के लिए कुछ विशेष कार्य संपन्न करेंगे।

### संतान

संतान की दृष्टि से वर्ष का पूर्वार्द्ध सामान्य रहेगा। आपके बच्चे अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ेंगे। वे अपनी बौद्धिक शक्ति एवं कर्म के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।

26 जून के बाद पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से नव विवाहित व्यक्तियों को संतान रत्न की प्राप्ति हो सकती है। आपके बच्चों की उन्नति होगी। प्रथम संतान के विषय में शुभ समाचार प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति होने के शुभ योग बने हैं। यदि आपकी सन्तान विवाह योग्य है तो विवाह भी हो सकता है। यदि आप दूसरे बच्चे की इच्छा रखते हैं तो गर्भाधान के लिए उत्तम समय है। 26 नवम्बर के बाद समय कुछ प्रभावित हो सकता है। इस समयान्तराल में सन्तान पर अधिक ध्यान दें।

### स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं मानसिक रूप से सन्तुष्ट रहेंगे। शनि एवं गुरु ग्रह का गोचर अनुकूल होने के कारण शारीरिक आरोग्यता अनुकूल बनी रहेगी। मौसम जनित बीमारियों से यदि आप परेशान होते हैं तो जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। आप अपने स्वास्थ्य को अनुकूल रखने के लिए शुद्ध एवं शाकाहारी भोजन ही करें।

जून के बाद गुरु ग्रह का गोचर और भी शुभ हो रहा है, लेकिन साथ ही लग्न स्थान पर शनि ग्रह की दृष्टि प्रभाव से मानसिक परेशानी या शारीरिक आलस्यता बढ़ सकती है, जिसके फलस्वरूप आप बीमार हो सकते हैं। सुबह-सुबह व्यायाम करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। 26 नवम्बर के बाद आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

### करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा

प्रतियोगिता परीक्षा के लिए छठे स्थान पर गुरु एवं शनि ग्रह के संयुक्त गोचरीय प्रभाव से आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। इस समय के अंतराल में नौकरी भी मिल सकती है।

26 जून के बाद पंचम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है।

## यात्रा-तबादला

चतुर्थस्थ राहु के प्रभाव से अपने जन्म स्थल से दुर की यात्रा हो सकती है। स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। द्वादश स्थान पर शनि ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है।

जून के बाद छोटी यात्राओं के साथ साथ आपकी लम्बी यात्राएं भी होंगी। वर्षान्त में जलीय स्थल या समुद्र के माध्यम से विदेश यात्रा भी हो सकती है।

## धर्म कार्य एवं ग्रह शांति

धार्मिक कार्यों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा। वर्ष के पूर्वार्द्ध में अधिक व्यस्तता के कारण आप पूजा पाठ के लिए अधिक समय नहीं निकाल पाएंगे। चतुर्थ राहु के प्रभाव से आपके नित्य नैमित्य पूजा प्रभावित हो सकती है। 26 जून के बाद पंचम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप आप निःस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा व सत्कर्म करेंगे। 26 नवम्बर के बाद आप दान पुण्य अधिक करेंगे।

- घर में श्रीयन्त्र स्थापित करें और नित्य उसके सामने देशी घी का दीपक जलाएं।
- सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दें।
- प्रत्येक दिन प्राणायाम करें।
- अपने माता-पिता की सेवा करें।

## वार्षिक फलादेश - 2028

वर्षारम्भ में मीन राशि के शनि छे भव में रहेंगे और 23 फरवरी को मेष राशि एवं सप्तम भव में प्रवेश करेंगे। राहु वर्ष के शुरु में मकर राशि एवं चतुर्थ भव में रहेंगे और 24 मई को धनु राशि एवं तृतीय भव में प्रवेश करेंगे। वर्षारम्भ में कन्या राशि के गुरु द्वादश भव में रहेंगे और वक्री होकर 28 फरवरी को सिंह राशि एवं एकादश भव में प्रवेश करेंगे और फिर से मार्गी होकर 24 जुलाई को कन्या राशि एवं द्वादश भव में प्रवेश करेंगे। इस वर्ष मंगल ग्रह अपनी सरल गति से गोचर करेंगे। 28 मई से 6 जून तक शुक्र अस्त रहेंगे।

### व्यवसाय

व्यावसायिक रूप से वर्ष का प्रारम्भ सामान्य रहेगा। पारिवारिक परेशानी के कारण आपका कार्य व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। परन्तु छे स्थान का शनि आपको सफलता के लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगा। फरवरी के बाद बड़े अधिकारियों या अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा। जिसका उचित लाभ उठाकर आप अपने व्यापार में उन्नति करेंगे। यदि आप किसी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। चतुर्थ स्थान का राहु नौकरी करने वाले जातकों का स्थान परिवर्तन करा सकता है।

24 जुलाई से गुरु ग्रह का गोचर फिर से प्रतिकूल हो रहा है। आपको धोखा या व्यापार में हानि हो सकती है। गुप्त शत्रु व विरोधियों द्वारा आपके कार्यों में रुकावटें डालने की कोशिश की जा सकती है। अतः आपको सकारात्मक सोच में वृद्धि कर अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। राहु एवं शनि ग्रह का गोचर अनुकूल होने के कारण आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे।

### धन संपत्ति

आर्थिक रूप से वर्ष का प्रारम्भ सामान्य रहेगा। कुछ अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। पारिवारिक खर्च अधिक होने के कारण इच्छित बचत नहीं कर पाएंगे। 28 फरवरी से एकादश स्थान में गुरु के गोचरीय प्रभाव के चलते आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरु हो जाएगा। पुराने चले आ रहे ऋण इत्यादि से मुक्ति मिल सकती है। फंसा हुआ या रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।

24 जुलाई के बाद गुरु ग्रह का गोचर फिर से प्रभावित हो रहा है। उस समय कुछ ऐसे खर्च आ जाएंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। अतः किसी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों में धन निवेश न करे। लेन-देन के मामले में हमेशा सावधान रहें। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर भी आपका पैसा खर्च हो सकता है।

### घर-परिवार, समाज

वर्ष का प्रारम्भ पारिवारिक वातावरण के लिए अनुकूल नहीं है। चतुर्थ स्थान के राहु आपके परिवार में विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे, जिससे पारिवारिक अनुकूलता भंग हो

सकती है। साथ ही परिवार में किसी बड़े व्यक्ति के साथ आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। अतः अच्छा यही होगा की आप अपनी सहनशक्ति को बढ़ाएं, नहीं तो उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। मातुल पक्ष के लोगों के साथ आपका अच्छा संबंध बना रहेगा। फरवरी से आपको भाईयों सहयोग मिलेगा।

24 मई से घरेलू वातावरण अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपके परिवार में सुख शान्ति का वातावरण बना रहेगा। तृतीयस्थ राहु के प्रभाव से सामाजिक पद व प्रतिष्ठि में वृद्धि होगी। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। जन कल्याण के लिए आप कोई विशेष कार्य संपन्न करेंगे। सप्तमस्थ शनि आपकी पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं। अतः उनको स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की लापवाही नहीं बरतनी चाहिए।

### संतान

वर्ष के प्रारम्भ में संतान संबंधित चिन्ताएं बनी रहेंगी। द्वादश स्थान के गुरु बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं जिससे उसकी शिक्षा-दीक्षा भी प्रभावित हो सकती है। 28 फरवरी से गुरु ग्रह का गोचर एकादश स्थान में हो रहा है जिसके बाद अचानक आपके बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा।

आपके बच्चे अपने बौद्धिक बल से आगे बढ़ेंगे। परिश्रम के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 24 जुलाई से समय फिर से प्रभावित हो रहा है जिसके फलस्वरूप आपके बच्चों की उन्नति रुक सकती है।

### स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारम्भ अच्छा नहीं रहेगा। द्वादशस्थ गुरु के कारण स्वास्थ्य संबंधित चिन्ताएं बनी रहेंगी। मौसमजनित बीमारियों से आप परेशान होते रहेंगे परन्तु 28 फरवरी के बाद एकादश स्थान में गुरु ग्रह के गोचरीय प्रभाव से आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे।

24 जुलाई के बाद बीमारी, दुर्घटना या किसी प्रकार के शरीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। द्वादशस्थ गुरु के प्रभाव से मोटापा एवं लीवर से सम्बन्धित बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। सुबह सुबह व्यायाम या योगा करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा नहीं तो आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है।

### करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा

वर्ष का पूर्वार्द्ध करियर एवं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए श्रेष्ठतम रहेगा। षष्ठस्थ शनि के प्रभाव से आप सारे शत्रुओं को पछाड़कर अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। फरवरी के बाद से विद्यार्थियों के लिए समय बहुत उत्तम है। तकनीकी शिक्षा अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपने लक्ष्य में सफल रहेंगे।

24 जुलाई के बाद समय फिर से प्रभावित हो रहा है। आपकी शिक्षा में रुकावटें आ

सकती हैं। आलस्य की भावना आपकी उच्च शिक्षा में व्यवधान डाल सकती है। प्रतियोगिता परीक्षार्थियों को उस समय सफलता प्राप्ति के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी।

### यात्रा-तबादला

वर्ष के प्रारम्भ में ही आपकी विदेश यात्रा होगी। छोटी-मोटी यात्राएं तो होती रहेंगी परन्तु 23 फरवरी के बाद लम्बी यात्राएं भी खूब होंगी।

नौकरी करने वाले व्यक्तियों का अपने घर से दूर स्थानान्तरण हो सकता है। यह स्थानान्तरण आपके प्रतिकूल स्थान पर होगा।

### धर्म कार्य एवं ग्रह शांति

वर्ष के प्रारम्भ में आप दान पुण्य अधिक करेंगे। भण्डारा, गरीबों को दान और दूसरे की सहायता करना आपका नैसर्गिक गुण होगा। फरवरी के बाद एकादशस्थ गुरु ग्रह के प्रभाव से आपका मन पूजा-पाठ के प्रति ज्यादा आकर्षित रहेगा। परमात्मा की भक्ति एवं मन्त्र पाठ में रुचि लेंगे। सप्तमस्थ शनि ग्रह के प्रभाव से आप अपनी धर्मपत्नी के साथ कोई विशेष पूजा-पाठ करेंगे। जैसे- माता का जागरण, चौकी, अखण्ड रामायण पाठ इत्यादि।

- द्विज, देव, ब्राह्मण, बुजुर्ग, गुरु व मंदिर के पूजारी की सेवा, सुश्रूषा करें।
- पीली दाल, केला व बेसन की मिठाई मंदिर में दान करें एवं गुरुवार का व्रत करें।
- गणेशजी के मन्त्र का पाठ करें। बुधवार के दिन गणेशजी को दूर्वा चढ़ाएं।
- शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं।

## वार्षिक फलादेश - 2029

वर्ष के पूर्वार्द्ध में मेष राशि के शनि सप्तम भाव में रहेंगे और 08 अगस्त को वृष राशि एवं अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और वक्री होकर फिर से 05 अक्टूबर को मेष राशि एवं सप्तम भाव में आ जाएंगे। धनु राशि के राहु तृतीय भाव में रहेंगे। वर्षारम्भ में तुला राशि के गुरु लग्न स्थान में रहेंगे और वक्री होकर 29 मार्च को कन्या राशि एवं द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे और फिर से मार्गशीर्ष होकर 25 अगस्त को तुला राशि एवं लग्न स्थान में आ जाएंगे। वक्री मंगल 27 जुलाई तक कन्या राशि एवं द्वादश भाव में रहेंगे। 15 फरवरी से 16 अप्रैल तक शुक्र अस्त रहेंगे।

### व्यवसाय

वर्ष का प्रारम्भ व्यावसायिक उन्नति के साथ होगा। सप्तम स्थान पर गुरु एवं शनि ग्रह के संयुक्त गोचरीय प्रभाव से आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। 29 मार्च से कार्य व्यवसाय में कुछ व्यवधान आ सकता है। गुप्त शत्रुओं द्वारा कार्यों में रुकावटें डाली जा सकती हैं। अतः इस समय के अंतराल में आपको कोई नया कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिए। पहले से चले आ रहे व्यापार को और अच्छे ढंग से चलाना चाहिए।

05 अक्टूबर के बाद समय फिर से बहुत अच्छा हो रहा है। आपको व्यापार व कार्य क्षेत्र में सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य अनुकूल होने के कारण उन्नति के श्रेष्ठ योग बन रहे हैं। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी। आपके मित्र आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। सट्टा, शेयर बजार से जुड़े व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को अपने कार्यस्थल पर ही मान-सम्मान मिलेगा।

### धन संपत्ति

वर्ष का प्रारम्भ आर्थिक उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। आय में अनुकूलता बनी रहेगी परन्तु 29 मार्च के आय के मार्ग प्रभावित होंगे जिससे आपके आर्थिक क्षेत्र में उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है इसलिए आपको आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी से काम लेना चाहिए। कुछ खर्च अचानक आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। अतः अभी से अतिरिक्त धन का संचय कर सकते हैं।

05 अक्टूबर के बाद समय फिर से अच्छा हो रहा है। आप के रुके हुए पैसे मिल सकते हैं जिससे आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होना शुरू हो जाएगा। सप्तम स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से पत्नी या मित्रों से लाभ होगा। अपने व्यापार को और आगे बढ़ाने में भी धन व्यय करेंगे।

### घर-परिवार, समाज

वर्षारम्भ में परिवार में सुख शान्ति का वातावरण बना रहेगा। छोटे भाईयों का

अच्छ सहयोग मिलेगा परन्तु 29 मार्च के बाद गुरु का गोचर प्रतिकूल होने से पारिवारिक अनुकूलता भी भंग हो सकती है। परिवार में एक-दूसरे के प्रति वेमनस्य की भावना उत्पन्न हो सकती है। परिवार में कुछ लोगों का वर्ताव अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे में आपको अपने विवेक से काम लेने होगा। 25 अगस्त के बाद ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं।

05 अगस्त के बाद समय फिर से अच्छा हो रहा है। आपके परिवार में पुत्रादि का विवाह या कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा। उसमें आपकी अहम भूमिका होगी। सप्तम स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से पत्नी के साथ आपके सम्बन्ध मधुर होंगे। तृतीयस्थ राहु के प्रभाव से सामाजिक पद-प्रतिष्ठा के लिए यह वर्ष श्रेष्ठ रहेगा।

### संतान

वर्ष का प्रारम्भ संतान के लिए अच्छा रहेगा। पंचम भाव पर गुरु के दृष्टि प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति के अच्छे योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी रुचि बढ़ेगी। यदि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अच्छे शैक्षणिक संस्थान में उनका प्रवेश हो जाएगा।

आपके दूसरे बच्चे के लिए भी समय बहुत अच्छा है। उसका विवाह भी हो सकता है। 29 मार्च से 25 अगस्त तक का समय प्रभावित रहेगा। उसके बाद का समय अच्छा रहेगा।

### स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारम्भ उत्तम रहेगा। लग्नस्थ गुरु पर शनि की दृष्टि आपकी सेहत के लिए उत्तम है। यदि आप बीमार भी होते हैं तो आपकी सेहत शीघ्र ही अच्छी हो जाएगी। आपकी आरोग्यता व कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। 29 मार्च के बाद अचानक आपके स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। कफ, मधुमेह एवं पेट संबंधित बीमारियों के कारण आप परेशान हो सकते हैं। मौसमजनित बीमारियों से भी बचें।

25 अगस्त के बाद स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप का खान-पान एवं दिनचर्या भी सुधरेगी। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जिससे रोगप्रतिरोधक शक्ति और अतिरिक्त मानसिक ऊर्जा प्राप्त होगी।

### करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा

वर्ष का प्रारम्भ विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहेगा। व्यवसायिक व्यक्तियों को अच्छा लाभ मिलेगा। तकनीकी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। 29 मार्च के बाद समय कुछ प्रभावित हो रहा है। उस समय प्रतियोगिता परीक्षार्थियों को सफलता प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा।

25 अगस्त के बाद समय फिर से अनुकूल हो रहा है। आप पढ़ाई-लिखाई में आगे रहेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छे शैक्षणिक संस्थान में आपका प्रवेश हो जाएगा।

## यात्रा-तबादला

तृतीयस्थ राहु के प्रभाव से वर्षारम्भ से ही छोटी-मोटी यात्राएं होती रहेंगी। ज्यादातर यात्राएं अचानक होंगी। 29 मार्च के बाद द्वादशस्थ गुरु विदेश यात्रा के प्रबल योग बना रहे हैं।

25 अगस्त के बाद नवम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपकी लम्बी यात्राएं होंगी। यात्रा के दौरान या वाहन चलाते समय सावधानी बहुत बरतें, क्योंकि अष्टम स्थान का शनि यात्रा के लिए शुभ नहीं होता।

## धर्म कार्य एवं ग्रह शांति

वर्षारंभ में लग्न, पंचम व नवम इन तीनों त्रिकोण भावों पर गुरु के गोचरीय प्रभाव के चलते आप ईश्वर भक्ति, योग, तीर्थाटन तथा गुरु भक्ति या गुरु दीक्षा लेने जैसी गतिविधियों में रुचि लेने के अतिरिक्त पूजा-पाठ, मंत्र जाप तथा यज्ञ आदि कर्म अधिक करेंगे।

- माता-पिता, गुरु, साधू, संन्यासी और अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें।
- मंदिर या धार्मिक स्थानों पर केला या बेसन के लड्डू वितरित करें।
- प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
- शनिवार के दिन लोहे का तवा गरीब व्यक्ति को दान करें।

## वार्षिक फलादेश - 2030

वर्षारम्भ में मेष राशि के शनि सप्तम भाव में रहेंगे और 17 अप्रैल को वृष राशि एवं अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे धनु राशि के राहु तृतीय भाव में रहेंगे और 04 फरवरी को वृश्चिक राशि एवं द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। 25 जनवरी को गुरु वृश्चिक राशि एवं द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे और वक्री होकर 01 मई को तुला राशि एवं लग्न स्थान में गोचर करेंगे और फिर से मार्गी होकर 23 सितम्बर को वृश्चिक राशि एवं द्वितीय भाव में आ जाएंगे। इस वर्ष मंगल अपनी सरल गति से गोचर करेंगे 27 सितम्बर से 18 नवम्बर तक शुक्र अस्त रहेंगे

### व्यवसाय

व्यावसाय से जोड़ कर देखा जाए तो वर्ष का प्रारम्भ बहुत ही हितकारी होगा। आपको प्रतीत होगा कि आपके कुछ सपने अभी भी अधूरे हैं और इसलिए इस साल आप उन सपनों को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। मुख्यतः ग्रहों के गोचर अनुकूल होने के कारण किसी भी समस्या का समाधान करना आपके लिए आसान होगा जिसके चलते आप अपने अधिकारियों की नजरों में आएंगे।

17 अप्रैल के बाद अष्टम स्थान के शनि व्यावसायिक जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति बना रहे हैं। इस अवधि में आपका अपने प्रति विश्वास ही आपको लगातार विजय दिलाएगा। आप अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचान में कुछ कठिनाईयों का अनुभव करेंगे। आपके कार्यों में गुप्त शत्रुओं द्वारा रुकावटें डाली जा सकती हैं। इसलिए बिना किसी पर विश्वास किये आप अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार अपना कार्य करते रहें।

### धन संपत्ति

वर्ष का प्रारम्भ आपके लिए सिर्फ लाभ को दर्शाता है। अपने लक्ष्य के प्रति आपका उत्साह उजागर हो जाएगा। निवेश करने के लिए भी यह एकदम उपयुक्त समय होगा। द्वितीयस्थ गुरु के प्रभाव से रत्न आभूषण इत्यादि वस्तुओं की प्राप्ति होगी। संचित धन में भी वृद्धि होगी।

अप्रैल के बाद राहु एवं शनि ग्रह का गोचर प्रतिकूल होने से आर्थिक समृद्धि में कमी आएगी। द्वितीय स्थान का राहु अचानक कुछ ऐसे खर्चे ला देगा जिसके चलते आपको आर्थिक तंगी आ सकती है। अतः इस समय के अंतराल में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले उस क्षेत्र से जुड़े लोगों की सलाह अवश्य लें, नहीं तो पैसा फंस सकता है।

### घर-परिवार, समाज

वर्षारम्भ से ही आपके परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। परिवार में एक-दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न होगी जिससे आपस में भावनात्मक लगाव बढ़ेगा।

राहु ग्रह का गोचर पारिवारिक वातावरण के लिए शुभ नहीं है। परिवार के कुछ

लोगों का बर्ताव अच्छा नहीं रहेगा। उस समय आपको अपनी वाणी पर नियन्त्रण रखना होगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। वर्ष के उत्तरार्द्ध में आप सामाजिक गतिविधियों में कम ही भाग लेंगे।

### संतान

यह वर्ष संतान के लिए श्रेष्ठ रहेगा। वर्ष का प्रथम माह बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। 04 फरवरी से राहु एवं गुरु की युति संतान के लिए अच्छा नहीं है। इस समय के अंतराल में संतान संबंधित चिंताएं बढ़ सकती हैं। अतः उनके स्वास्थ्य एवं पढ़ाई-लिखाई पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए।

1 मई से गुरु ग्रह का गोचर शुभ होने से आपके बच्चों की उन्नति होगी। आप अपने बच्चों से जितनी अपेक्षा रखते हैं वे उससे भी अच्छा करेंगे। संतान इच्छित व्यक्तियों के लिए यह उत्तम समय चल रहा है। आपके बच्चों के साथ मधुर संबंधों में वृद्धि होगी जिससे आपके घरेलू वातावरण में भी सुधार होगा।

### स्वास्थ्य

लग्न स्थान पर शनि की दृष्टि स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती अतः आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि आप अपने जीवन का भरपूर लाभ उठा सकें। फिर चाहे व्यावसायिक जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन, यदि आप स्वस्थ नहीं होंगे तो इसका बुरा असर आपके जीवन पर पड़ेगा।

राहु ग्रह का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए और प्रतिकूल हो रहा है। अतः आप खुद को बीमार होने से बचाएं। इस दौरान आप तनाव से भी ग्रसित हो सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आप योग, ध्यान या सुबह-सुबह व्यायाम नियमित रूप से करें।

### करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा

वर्ष का प्रथम माह विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहेगा। करियर में सफलता प्राप्ति के लिए लगातार परिश्रम करने की आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा व तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए यह समय श्रेष्ठ है।

17 अप्रैल के बाद समय कुछ प्रभावित हो रहा है। इस समय आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। अपने मन को लक्ष्य के प्रति केन्द्रित कर तैयारी करते रहना चाहिए क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी।

### यात्रा-तबादला

तृतीयस्थ राहु के प्रभाव से आपके छोटी-मोटी यात्राएं तो होती रहेंगी परन्तु 01 मई से नवम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि के कारण आपकी लम्बी यात्राएं भी होंगी। इस समय आपकी व्यवसाय से संबंधित यात्रा हो सकती है।

यात्रा करते समय या वाहन चलाते समय सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि एवं राहु ग्रह का गोचर प्रतिकूल होने से वाहन दुर्घटना या यात्रा के अंतराल चोरी होने के प्रबल संकेत है।

### धर्म कार्य एवं ग्रह शांति

धार्मिक कार्यों के लिए वर्ष का प्रारम्भ सामान्य रहेगा परन्तु 1 मई से नवम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी।

- शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करें। शनि मन्त्र का पाठ करें।
- प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाए।
- दुर्गा जी की उपासना करें या दुर्गा बीसा कवच गले में धारण करें।

